



**BRIEF NEWS**

**पलामू में युवक ने फंदा लगाकर की खुदकुशी**  
**PALAMU :** जिले के उंटारी रोड थाना क्षेत्र के लकड़ही गांव में गुरुवार को 37 वर्षीय जयराम रजवार ने खुदकुशी कर ली। उसका शव एक पेड़ के सहारे फंदे पर लटकता मिला। बताया गया है कि वह वह कुछ दिनों से पारिवारिक विवाद के कारण तनाव से जूझ रहा था। जानवर बांधने की रस्सी के सहारे ही उसने फंदा बनाया और जीवन लीला समाप्त कर ली। उसके तीन नाबालिग बच्चे हैं। सूचना के बाद उंटारी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। ग्रामीणों के सहयोग से शव को पेड़ से नीचे उतार कर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर के एमआरएचसीएच भेज दिया। थाना प्रभारी अशोक कुमार महतो ने बताया कि मामला प्रथम दृष्टि से आत्महत्या से जुड़ा लगता है। वैसे पुलिस मामले की जांच कर रही है।

**बिजली तार की चपेट में आने से सात मवेशियों की मौत, तीन महिलाएं झुलसी**

**GIRIDIH :** जिले के गावां प्रखंड अंतर्गत नगवां पंचायत के चक गांव में बुधवार की देर रात लगभग एक बजे बिजली का तार टूटकर गिरने से सात मवेशियों की मौत हो गई। जबकि इसकी चपेट में आने से तीन महिला गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिसका इलाज गावां सीएचसी में चल रहा है। घायलों में फुलवा देवी, मनो देवी और रविता देवी शामिल हैं। बताया जाता है कि तार महेंद्र यादव व अर्जुन यादव के घर के दरवाजे के ऊपर से गया हुआ है। तार काफी जर्जर था। बुधवार की देर रात अचानक बिजली का तार टूट कर गिर गया, जिससे मौके पर ही सात मवेशी की मौत हो गई। मवेशियों द्वारा जोर-जोर से आवाज करने पर महिलायें दौड़ कर बाहर आईं वो तार की चपेट में आ गईं, जिसमें तीन महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं। इसके बाद परिजनों ने स्थानीय मुखिया मेराज उद्दीन को सूचना दिया। वे घायल महिला को गावां सीएचसी भेजा।

**अदाणी फाउंडेशन ने गोड्डा के स्कूलों में चलाया स्वच्छता अभियान**

**GODDA :** अदाणी फाउंडेशन की ओर से स्वच्छता को लेकर सदर प्रखंड के मध्य विद्यालय मोतिया, दुमरिया और गुम्मा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं छात्र-छात्राओं द्वारा स्वच्छता से कक्षाओं व विद्यालय मैदान में सफाई का अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में अदाणी फाउंडेशन के प्रतिनिधि ने छात्र-छात्राओं को बताया कि स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। स्कूल में स्वच्छता नहीं होगी तो बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने बच्चों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया और उन्हें स्वच्छता के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। मध्य विद्यालय मोतिया के प्रधानाचार्य ने अदाणी फाउंडेशन के इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान से स्कूल का वातावरण स्वच्छ और सुंदर होगा। अदाणी फाउंडेशन की ओर से स्कूल में कूड़ेदान आदि का वितरण किया गया। छात्र-छात्राओं ने गंदगी को कूड़ेदान में डालने की शपथ ली।

**लोहरदगा में करमा की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित**

**LOHARDAGA :** जिले के भंडरा प्रखंड के विटपी मुरली तालाब के समीप स्थित जय सरना लूकड़िया भवन प्रांगण में गुरुवार को करमा पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें लोहरदगा एवं गुमला जिले के विभिन्न गांवों से आए हुए 50 खोड़हा समूह पारंपरिक वेशभूषा में भाग लिए। सरना प्रार्थना सभा, 12 पड़हा और आदिवासी छात्र संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक चमरा लिंडा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लिंडा ने कहा कि प्रकृति की रक्षा से ही समाज में प्रगति आ सकती है। करमा को लोहार आदिवासी संस्कृति को नवजीवन देता है। इससे पर्यावरण में भी शुद्धता रहती है। आदिवासी समाज को शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक परंपरा को भी बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समाज को आगे लाने में युवाओं को सहयोग करना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक चेतना के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है।

**बाबूलाल ने संकल्प यात्रा के दौरान सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र की जनसभा को किया संबोधित, कहा-**

**हेमंत सरकार की विदाई करने का लें संकल्प**

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को संकल्प यात्रा के क्रम में सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र की जनसभा को संबोधित किया। मरांडी ने कहा कि लगभग चार वर्षों में हेमंत सरकार ने झारखंड को केवल भ्रष्टाचार और लूट करवाया है। संकल्प यात्रा के माध्यम से हेमंत सरकार को धूमधाम से विदाई देने का संकल्प दिलाते आया हूँ। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार में शामिल हैं। खान खनिज जमीन पत्थर बालू और गरीबों का अनाज सब की लूट मची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनका परिवार गरीबों आदिवासियों की जमीन नाम बदलकर कर लूट रहे। मुख्यमंत्री लुटेरों, बिचौलियों दलालों को बचाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। यदि वे बेदाग हैं तो फिर डंडी



**सिमडेगा में बाबूलाल मरांडी का स्वागत करते गांधी। • फोटोन न्यूज**

में विकास कार्य ठप पड़े हैं। सरकार सड़क का मरम्मत भी नहीं करवा पा रही। आज विद्यालय में शिक्षक नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, दवाई नहीं। मरांडी ने कहा कि भाजपा ही विकास और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका

विकास सार्थक हो रहा। विश्वकर्मा जयंती पर शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना से गांव के हनुन को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसर मिलेंगे। सस्ते दर पर बिना गारंटी ऋण उपलब्ध होने से गांव के बढ़ई, लोहार, सुनार, कुंभकार, जूते बनाने वाले, मछली पालन करने वाले, नाई ऐसे

**मरांडी ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का किया आह्वान**

**PHOTON NEWS KHUNTI :**

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा के तहत गुरुवार को तोरपा में 2024 में नरेन्द्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और झारखंड में भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों को देखा है। इसलिए वे गरीबों की चिंता करते हैं। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस-जेएमएम झारखंड को लूटने का कार्य किया है। झारखंड में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। हेमंत सरकार में अपराधियों में



**गंव पर उपस्थित बाबूलाल मरांडी व अन्य नेता। • फोटोन न्यूज**

कानून का डर समाप्त हो गया है। अपराधमुक्त प्रदेश बनाना है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में कोयला, बालू, पत्थर, जमीन की लूट मची है। अंचल ब्लॉक और जिले के सरकारी कार्यालयों में बिना पैसे दिये कोई काम नहीं होता है। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण

पत्र बनाने में भी पैसे देना पड़ रहा है। राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए घूस देना पड़ता है। सरकारी पदाधिकारियों को मोबाइल रिचार्ज की तरह पद पर बने रहने के लिए हेमंत सरकार को रिचार्ज करना होता है। हेमंत सरकार के भ्रष्टा अधिकारी निर्लज होकर पैसे मांगते हैं।

पारंपरिक पेशा से जुड़े लोग अब रोजगार देने वाले बनेंगे। 13 हजार करोड़ की योजना भारत की

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगी। स्वावलंबी भारत का लक्ष्य पूरा होगा। उन्होंने कहा

कि झारखंड का विकास भाजपा और एनडीए सरकार ही कर सकती है।

**कुड़मियों को हटाने गई पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के दागे गोले**

**पत्थरबाजी में डीएसपी, बीडीओ सहित कई घायल**

**PHOTON NEWS CHAIBASA :**

पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड अंतर्गत घाघरा हाल्ट से आंदोलन कर रहे कुड़मियों को हटाने के लिए पहुंची पुलिस के साथ बुधवार की रात आंदोलनकारियों की झड़प हो गई। पुलिस ने रेल ट्रेक जाम कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया, तो आंदोलनकारियों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इसमें पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी गंभीर रूप से चोटिल हो गए। बाद में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। आंसू गैस के गोले दागे जाने के बाद आंदोलनकारी रेलवे ट्रेक खाली करके दूसरी ओर चले गए। इस दौरान डीएसपी, बीडीओ और कई जवान घायल हो गए हैं। आंदोलन कर रहे लोगों में कितने लोगों को चोटें आई हैं, इसकी पुष्टा जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। बताया जाता है कि रात देर रात रेल चक्का जाम हटाने को



**आंदोलन कर रहे कुड़मियों को समझाती पुलिस। • फोटोन न्यूज**

लेकर प्रशासन कुड़मी समाज के लोगों से वार्ता कर रही थी। प्रशासन ने लोगों से रेल चक्का जाम हटाने की अपील की जा रही थी। खुद एसडीओ रीना हांसदा मौके पर मौजूद थी। इसी दौरान अचानक से पत्थरबाजी शुरू हुई, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने भी रेल पटरी पर भीड़ लगाये कुड़मी समाज के लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। अचानक हुए इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। घटनास्थल में अंधेरा होने के कारण मामला स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। पुलिस

**हॉट मिक्सिंग प्लांट के मालिक से सात दिनों के अंदर मांगा जवाब**

**PHOTON NEWS PALAMU :**

जिले में अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन के रोकथाम के लिए जिला खनन पदाधिकारी पंडवा एवं मेदिनीनगर अंचल अंतर्गत हॉट मिक्सिंग प्लांट का निरीक्षण किया, जहां खनिज का भंडारण पाया। त्वरित कार्रवाई करते हुए कार्य करवा रहे संवेदक से स्पष्टीकरण कर सात दिनों के अंदर जवाब मांगा। ऐसा नहीं करने पर नियम संगत कार्रवाई करने की बात कही।



**प्लांट का निरीक्षण करते जिला खनन पदाधिकारी। • फोटोन न्यूज**

जिला खनन पदाधिकारी ने 20 एवं 21 सितंबर को लगातार दो दिन हॉट मिक्सिंग प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में सबसे पहले 20 सितंबर को डीएमओ

पण्डवा पहुंचे एवं अंचल के तुकबेरा में स्थापित हॉट मिक्सिंग प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण कि क्रम में पाया कि प्लांट में 10 एमएम का 7500 घनफीट एवं 20 एमएम का 5 हजार घनफीट स्टोन चिप्स रखा हुआ है, जिसकी जांच जेम्स पोर्टल पर की तो पाया कि

दिए जाने पर नियम संगत कार्रवाई को लेकर निर्देशित किया। इसी प्रकार 21 सितंबर को मेदिनीनगर अंचल के जोरकट में स्थापित हॉट मिक्सिंग प्लांट एवं पत्थर चट्टी बेतला रोड डीएवी इंजीनियरिंग कॉलेज समीप मिक्सिंग प्लांट की जांच की, जहां पर 2500 सौ घनफीट स्टोन चिप्स, 1500 सौ स्टोन चिप्स डस्ट, वही जोरकट में 25 हजार घनफीट स्टोन चिप्स एवं एक हजार स्टोन डस्ट पाया जिस पर कार्रवाई करते हुए खनिज विज्ञान रणधीर कुमार सिंह एवं जीएस कंस्ट्रक्शन, गुरुजीत सिंह से स्पष्टीकरण करते हुए सात दिनों के अंदर जवाब मांगा। साथ ही ससमय जवाब नहीं

**पांकी मस्जिद चौक से बैरिकेडिंग हटाए प्रशासन : विधायक**

**PHOTON NEWS PALAMU :**

पांकी विधायक डॉ कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने पांकी मस्जिद चौक पर एक विशेष समुदाय द्वारा सड़क के किनारे बैरिकेडिंग लगाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने जिला प्रशासन से अविलंब सड़क के किनारे बैरिकेडिंग हटाने

की मांग की है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व को लेकर तोरण द्वार लगाने को लेकर दो समुदाय में हिंसक झड़प हुई थी, जिससे क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ था। डा. मेहता गुरुवार को पांकी में पत्रकारों से बात कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र के तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए तत्कालीन उपायुक्त ए डोडे व पलामू एसपी ने शांति समिति की बैठक आयोजित कर यह निर्देश जारी किया था मस्जिद चौक पर किसी भी पर्व में बांस की बैरिकेडिंग नहीं की जायेगी। इसके बावजूद भी मुस्लिम

समुदाय द्वारा सड़क के किनारे अवैध तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। इसे पुलिस प्रशासन अविलंब हटाये। विधायक ने कहा कि सड़क पर जल मीनार, चाय दुकान खोल दिया गया है। आये दिन लोगों को रास्ते से गुजरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

**उपायुक्त ने की आत्मा गवर्निंग बॉडी की बैठक, अधिकारियों को दिए कई निर्देश**

**PHOTON NEWS LOHARDAGA :**

उपायुक्त डॉ वाचमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में गुरुवार को आत्मा गवर्निंग बोर्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन, कार्यकारिणी समिति एवं समेकित विरसा ग्राम योजना-सह-कृषक पाठशाला की बैठक हुई। बैठक में कुड़ प्रखण्ड में समेकित विरसा ग्राम योजना-सह-कृषक पाठशाला के कार्य प्रगति की समीक्षा की गई, जिस पर असंतोष व्यक्त किया गया। इसमें सिटीजन फाउण्डेशन, रांची जो कार्य एजेंसी है, उसे 15 दिनों के अंदर कार्य में प्रगति लाते हुए प्रतिवेदन समर्पित किये जाने का नदेश दिया गया। स्मार्ट एग्री ग्राम योजना अंतर्गत



**बैठक में शामिल उपायुक्त व अन्य। • फोटोन न्यूज**

चयनित ग्राम में सीआरपी का चयन में नियमानुसार प्रक्रिया अपनायी गई है या नहीं, इसके लिए जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी और परियोजना निदेशक को जांच कर

प्रतिवेदन समर्पित किये जाने का निदेश दिया गया। बैठक में आत्मा परियोजना अंतर्गत संचालित जिला प्रसार कार्य योजना-2023 की समीक्षा की गई। कृषि कार्यालय की ओर से एनएफएसएम के वार्षिक कार्य

योजना पर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया कृषि विभाग की समीक्षा में चर्चापत्र, धान की बुआई, वैकल्पिक फसल बीज वितरण, कृषि ऋण माफी, केसीसी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएम कुसुम योजना की समीक्षा की गई। साथ ही, जो किसान धान की बुआई नहीं कर सके उनके लिए वैकल्पिक फसल का बीज उपलब्ध कराने हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को लाघुकों का लक्ष्य दिये जाने का निदेश दिया गया। 15 दिनों में बुआई का अधिक से अधिक उपलब्धि प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।

**PALAMU उपायुक्त शशि रंजन ने की जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक**

**ओडीएफ प्लस के तहत गांव बनेंगे मॉडल, बैटरी युक्त कचरा गाड़ी खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति**

**PHOTON NEWS PALAMU :**

उपायुक्त शशि रंजन ने गुरुवार को समाहरणालय सभागार में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने जल जीवन मिशन के तहत चल रहे एमवीएस, एसवीएस एवं क्लस्टर योजनाओं की प्रगति समीक्षा की। उपायुक्त ने नीलांबर पितांबरपुर प्रखंड से प्राप्त भूमि का एनओसी पर प्रखंड स्तरीय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का निर्माण करने, जिले में गोबरधन के लिए



**बैठक में उपस्थित उपायुक्त शशि रंजन व अन्य। • फोटोन न्यूज**

चयनित एजेंसी शिवम कंपनी से पांकी प्रखंड के पंचायत सुंडी में गोबरधन प्लांट लगाने और जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत चल रहे कार्यों के अनुश्रवण के लिए जिला

स्तर पर वाहन का परिचालन करने एवं परिचालन पर होने वाले व्यय को एसवीएम ग्रामीण के आईसीसी मद से भुगतान करने के लिए अनुमोदन की स्वीकृति दी। उपायुक्त ने जिले में ओडीएफ प्लस के तहत सभी गांव को मॉडल ग्राम बनाने के लिए 265 जीईएम पोर्टल से खरीदने के लिए अनुमोदन की स्वीकृति दी। उन्होंने जिला अंतर्गत सभी गांव में प्लास्टिक कचरा संग्रहण करने के लिए बांस का चेचरी का निर्माण

कराने के लिए एसवीएम ग्रामीण के राशि का ग्राम स्तर पर खर्च होने वाले एसवीएम ग्रामीण के राशि से भुगतान करने, स्वच्छता ग्राही द्वारा पलामू जिले में ओडीएफ प्लस अंतर्गत किए गए जिओ टैग का राशि भुगतान करने पर चर्चा की। बैठक में उपायुक्त के अलावे सहायक समाहर्ता, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, लाघु सिंचाई के कार्यपालक अभियंता सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे।

**कांग्रेस विधायक ने मृतक रहमतुल्ला अंसारी के परिजनों से की मुलाकात**

**PHOTON NEWS RANCHI :**

कांग्रेस विधायक डॉ इरफान अंसारी गुरुवार को कांके के हुसिर गांव मृतक रहमतुल्ला अंसारी के परिजनों से मिलने उनके आवास पहुंचे। मौके पर परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने विधायक इरफान अंसारी को बताया कि स्वर्गीय रहमतुल्ला अंसारी को बिरसा मुंडा जेल के अंदर साजिश के तहत हत्या कर दी गई है, और प्रशासन इस मामले पर लीपा पोती कर आत्महत्या का रूप दे रही है। इस दौरान डॉक्टर इरफान अंसारी ने परिजनों और ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि वे जल्द मुख्यमंत्री से मिलकर इस पर उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और इस मामले में शामिल लोगों को सजा भी दिलावाएंगे। मौके पर डॉक्टर



इरफान अंसारी ने कहा कि परिजनों से जो जानकारी मिली है उससे लगता है कि मृतक रहमतुल्ला अंसारी की हत्या जेल के अंदर की गई है। जानकारी देते चले की कांके थाना अंतर्गत हुसिर निवासी रहमतुल्ला अंसारी को एक कांड में आरोपी बनाकर कांके पुलिस कुछ माह पूर्व जेल भेजी थी, लेकिन 13 अगस्त को रहमतुल्ला अंसारी को जेल प्रशासन के द्वारा जख्मी हालत में रिस्प में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

**BRIEF NEWS**

**24 को मनाई जाएगी श्री राधा अष्टमी महोत्सव**

**RANCHI :** श्री राधा अष्टमी महोत्सव 24 सितम्बर को मनाया जाएगा। पुदाग में निमाणधीन श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया है। श्रीश्री 108 स्वामी सदानंद महाराज की ओर से संचालित श्री कृष्ण प्रणामी सेवा धाम ट्रस्ट और स्वामी सदानंद प्रणामी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से यह आयोजन किया जाएगा। ट्रस्ट की ओर से गुरुवार को इस बार 37 वां वार्षिकोत्सव सह श्री राधा अष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान भजन, सत्संग के साथ नृत्य- नाटिका का मंचन किया जाएगा।

**माल-पहाड़िया जनजाति की उम्र पर रिस्स करेगा शोध**

**RANCHI :** माल-पहाड़िया जनजाति की औसत उम्र क्यों कम है, इस पर रिस्स के द्वारा शोध किया जाएगा। रिस्स के लिए निकाली गई पांच पदों पर नियुक्ति के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि इसमें प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर (कंसल्टेंट) के लिए सेसिल हेन्ड्रम, यूट्यूबिनिस्ट (कंसल्टेंट) के लिए ममता कुमारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फारूक अंसारी, प्रोजेक्ट अस्सिस्टेंट- (मल्टीटास्किंग) के लिए चिंदू कुमार मोदक, प्रोजेक्ट अस्सिस्टेंट- (मल्टीटास्किंग) के लिए विजय कुमार और अकाउंटेंट्स सपोर्ट प्रोजेक्ट अस्सिस्टेंट- के लिए ब्रजेश कुमार हेन्ड्रम का चयन किया गया है। शोध के लिए रिस्स के एक्सपर्ट डीन रिस्स के द्वारा साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।

**चार साल से अधिक समय से लंबित आपराधिक कांडों की होगी समीक्षा**

**RANCHI :** झारखंड में चार साल से अधिक समय से लंबित आपराधिक कांडों की समीक्षा होगी। राज्य के सभी एटीएस एसपी, जिले के एसएसपी, एसपी, जौनल आईजी और सभी रेंज के डीआईजी के साथ 22 सितंबर को एडीजी अभियान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक करेगी। इस दौरान अभियोजन स्वीकृत्यादेश के लंबित कांडों की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की जायेगी। लंबे समय से लंबित केस के निष्पादन के लिए मार्गदर्शन और अनुवीक्षण समिति बनायी गयी है। इस समिति के अध्यक्ष एडीजी अभियान संजय आनंद लाठकर, उपाध्यक्ष, आईजी और सीआईडी असीम विक्रांत मिंज को बनाया गया है। जबकि सभी रेंज के डीआईजी इसके सदस्य हैं। पुराने लंबित आपराधिक मामलों के निष्पादन में तेजी आयी है।

**atom美 ATOMY INDIA**  
RANCHI TEAM WARRIOR CENTRE  
4th Floor, Shop No. 22, 23, 24  
Ranchi Roopla Tower  
Main Road, Ranchi - 834003  
Mob. 9324495776

# विधानसभा ने HIGH COURT को बताया छह राज्यों से मिले मंतव्य में 3 में नमाज कक्ष

## नमाज कक्ष निर्धारित किए जाने के मामले में हुई सुनवाई, कोर्ट में दायर किया गया शपथ पत्र



**SPECIAL REPORTER RANCHI :** विधानसभा में नमाज कक्ष निर्धारित किए जाने के मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। जहां विधानसभा की ओर से शपथ पत्र दायर किया गया। दायर शपथ पत्र में विधानसभा ने अदालत को बताया कि छह राज्यों से इस संबंध में मंतव्य आया है। इन छह राज्यों में से तीन राज्यों की विधानसभा में नमाज कक्ष है। अभी कई और राज्यों से मंतव्य आना बाकि है। इसके बाद नमाज कक्ष को लेकर विधानसभा द्वारा गठित सात सदस्य वाली सर्वदलीय कमेटी अपना निर्णय लेगी। जिसे कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटन

## HC से मिली सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा फॉर्म भरने के लिए सात दिन की छूट

**RANCHI :** सिविल जज, जूनियर डिवीजन के एग्जाम में निर्धारित 35 वर्ष की उम्र पर कर जाने की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले लाल ज्ञानरंजन नाथ शाहदेव एवं अन्य को गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट ने सिविल जज, जूनियर डिवीजन के एग्जाम में प्रार्थियों को ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए और 7 दिन की छूट दी है। 21 सितंबर तक ऑफलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। कोर्ट ने कहा है कि अब इन प्रार्थियों का एग्जाम लिया

## PFI सदस्यों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने का आदेश

**RANCHI :** हाइकोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) के कथित सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। दरअसल झारखंड सरकार ने वर्ष 2018 में पीएफआई पर बैन लगाया था। जिसके बाद पाकुड़, साहेबगंज और जामताड़ा जिले में करीब सौ से ज्यादा लोगों के खिलाफ अलग-अलग जिलों में तीन एफआईआर दर्ज की गई थी, दो मामले पहले ही खत्म हो चुके थे। लेकिन तीसरा मामला अब भी कोर्ट में लंबित था। हाइकोर्ट ने फिलहाल जिस मामले में एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया है, वह पाकुड़ जिले से

को लेकर जनहित याचिका दायर की गयी है। यह याचिका अजय कुमार मोदी की ओर से दायर है। गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार पित्रा और उनके रिजल्ट भी आएंगे। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की। खंडपीठ ने यह भी कहा कि प्रार्थियों का रिजल्ट इस केस के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगा। दरअसल, प्रार्थी लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव एवं अन्य की ओर से याचिका दायर कर कहा गया था वह सिविल जज, जूनियर डिवीजन की तैयारी कई वर्षों से कर रहे हैं। लेकिन पिछले 5 साल से सरकार ने कोई एग्जाम नहीं लिया था। इस वजह से उनका उम्र सीमा निर्धारित 35

वर्ष से ऊपर हो चुकी है। राज्य सरकार ने पिछले 5 साल से यह एग्जाम नहीं लिया इसलिए हमें निर्धारित उच्च उम्र सीमा में छूट देते हुए एग्जाम देने की अनुमति दी जाए। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनीत प्रकाश एवं नेहा पांडे ने पैरवी की। वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पियरवाल एवं प्रिंस कुमार ने पैरवी की। बता दें कि जेपीएससी द्वारा सिविल जज, जूनियर डिवीजन का एग्जाम लिया जा रहा है और फॉर्म भरने की आखिरी तिथि 21 सितंबर निर्धारित की गई है।

## रांची विश्वविद्यालय के हॉस्टल नंबर 4 को खाली कराने पहुंचा प्रशासन, छात्रों ने मांगी मोहलत

**CRIME REPORTER RANCHI :** रांची विश्वविद्यालय के हॉस्टल नंबर 4 को खाली करने के लिए छात्रों ने मोहलत मांगी है। गुरुवार सुबह 11 बजे एजीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मेरी मड़की की नेतृत्व में पुलिस हॉस्टल खाली करवाने पहुंची। छात्रों ने कहा कि उनकी परीक्षा चल रही है। कुछ छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे इतने समर्थ नहीं हैं कि तुरंत कहीं भाड़ा पर घर ले पाएं। ऐसे में उन्हें कुछ दिनों की मोहलत दी जाये। मालूम हो कि बुधवार को भी प्रशासन की टीम हॉस्टल खाली करवाने गई थी। छात्र नेता हरीश कुमार ने कहा कि हॉस्टल में रह रहे छात्र सहयोग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय छात्रों के रहने की



प्रशासन द्वारा हॉस्टल खाली का विरोध करते छात्र • फोटोन न्यूज

कोई व्यवस्था करे, फिर छात्र हॉस्टल खाली कर देंगे। इस बीच रांची विश्वविद्यालय के सीसीडीसी डॉ. प्रकाश कुमार झा मौके पर हॉस्टल नंबर 4 में उपस्थित थे। उन्होंने छात्रों से वार्ता की। छात्रों ने कहा कि हमें कहीं तत्काल शिफ्ट कर दिया जाए, तब हॉस्टल खाली करवाया जाए। वहीं छात्रों से वार्ता के दौरान सीसीडीसी ने कहा कि लेटर जारी कर अभी हॉस्टल खाली करवाने से प्रशासन को रोक जाएगा। बताया गया सीसीडीसी द्वारा लाइब्रेरी बनायी जानी है। जिसके लिए रांची विश्वविद्यालय की जो जमीन चिह्नित की गयी है, उसके ठीक बगल में रांची विश्वविद्यालय का यह हॉस्टल है।

## उत्पाद विभाग ने छह महीने में 113 प्रतिशत राजस्व वसूला



राजस्व संग्रहण पर अधिकारियों के साथ बैठक करते विनय चौबे।

**PHOTON NEWS RANCHI :** उत्पाद विभाग ने पिछले छह महीनों में लक्ष्य के विरुद्ध 113 प्रतिशत राजस्व का संग्रह किया। गुरुवार को उत्पाद भवन में मध्य निषेध विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण और अन्य विन्दुओं पर बैठक हुई। बैठक में राज्य के सभी जिलों के उत्पाद पदाधिकारियों

## एमआरपी से अधिक दर पर मदिरा की बिक्री पर सचिव ने रोक लगाने का दिया निर्देश

सचिव विनय चौबे ने एमआरपी से अधिक दर पर शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सभी सहायक आयुक्त उत्पाद और असेक्षक उत्पाद को निर्देश दिया। किसी भी परिस्थिति में एमआरपी से अधिक दर पर मदिरा की बिक्री और मदिरा के मिलावट ना हो, ऐसा सचिव ने निर्देश दिया। सभी जिला उत्पाद पदाधिकारियों को खुदरा उत्पाद दुकानों में एमआरपी संबंधी डिप्लेटे बोर्ड लगाने का भी निर्देश दिया गया। इसके अलावा निर्देश दिया गया कि ट्रेड एंड टैक्स प्रणाली के माध्यम से ही शराब की बिक्री सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा देशी और विदेशी शराब की प्यात आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जेएससीपीए को निर्देशित किया गया। खुदरा उत्पाद दुकानों से गमर राशि का सकलन करने वाली एजेंसी एसआईएस पर अपने कार्यों में शिथिलता बरतने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।



दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना-प्रदर्शन करते इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता।

**PHOTON NEWS RANCHI :** एचईसी को बचाने के लिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्फ्रस्ट्रक्चर अलायंस (ईडिया गठबंधन) के नेताओं ने गुरुवार को दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना- प्रदर्शन किया। धरना झामुमो जिलाध्यक्ष मुशाताक आलम की अध्यक्षता में दिया गया। मौके पर इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय नेता भी शामिल हुए। नेताओं ने कहा कि सभी जगह गुहार लगाने के बाद आज हम सब सीधा केंद्र सरकार के पास आये हैं। केंद्र सरकार अविश्वस्य हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है, तो कड़ा कदम उठाने को विवश होगे। नेताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब से बनी है, सभी सरकारी उपक्रमों को बचाने का काम कर रही है। भारतीय रेल, इंडियन

लिमिटेड को भी बचाने की साजिश रची थी, लेकिन झामुमो के आंदोलन ने उनके मनसुबे पर पानी फेर दिया था। बाजपेयी सरकार से लेकर मोदी की सरकार, सभी ने झारखंड को चारागाह के रूप में उपयोग करने का काम किया है। एक बार फिर से साजिश रची जा रही है। चंद्रशान का लॉजिंग पैड बनाने वाले एसईसी कर्मियों को विगत दो साल से तनखावा नहीं दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के देश विरोधी, राज्य विरोधी व जन विरोधी रवैये से कंपनी के सभी कायादेश निरस्त हो जा रहे हैं।

## रांची डीसी का निर्देश, बैंकर्स समय पर अदालत में दर्ज कराएं अपनी उपस्थिति

**PHOTON NEWS RANCHI :**

नीलाम पत्र से संबंधित समीक्षा बैठक गुरुवार को साहमरगालय में रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता हुई। बैठक में नीलाम पत्र पदाधिकारी संजय प्रसाद, सभी सर्टिफिकेट ऑफिसर, एलडीएम रांची, सभी बैंकों के प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। डीसी ने बैंकर्स द्वारा केस के अपडेट से न्यायालय को अवगत करने, रजिस्टर क एवं का मिलान, मिलान के लिए निर्धारित तिथि और रोस्टर के अनुसार बैंकों की उपस्थिति, व/र-09 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर



रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा।

रिजॉइंडर उपलब्ध कराने, बड़े बकायेदारों को चिन्हित करते हुए नोटिस एवं वारंट से संबंधित कार्यवाई में सहयोग करने, बैंकर्स द्वारा केस में निर्धारित तिथि को पैरवी, देनदार द्वारा राशि जमा करने के उपरांत बैंकर्स द्वारा अनापति प्रमाण-पत्र समय पर

उपलब्ध कराने की समीक्षा की। कहा कि सभी बैंकर्स न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करावें। डीसी ने सभी बैंकर्स को निर्धारित तिथि पर नीलाम पत्र शाखा आकर रजिस्टर क एवं का मिलान करने के निर्देश दिये। साथ ही सभी बैंकर्स को इस कार्य के लिए एक व्यक्ति को नामित करने को कहा। डीसी ने अधिकतम लंबित वाद वाले बैंक (भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया) को त्वरित कार्यवाई करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी बैंकर्स मासिक प्रगति प्रतिवेदन हर माह की 2 तारीख तक नीलाम पत्र शाखा को उपलब्ध करावें।

## संकट मोचन मंदिर की नई समिति के अध्यक्ष ने कार्यभार संभाला

**RANCHI :** धार्मिक न्यास बोर्ड और मंदिर कमेटी में विवाद के बीच मेन रोड स्थित संकट मोचन मंदिर में धार्मिक न्यास बोर्ड की नई समिति ने अध्यक्ष विजय बर्मन के नेतृत्व में कार्यभार संभाला। विजय बर्मन ने मौके पर कहा कि नई कमेटी सभी पुरानी कमेटी को साथ लेकर चलेगी। हमलोग बाबा महंत से आशीर्वाद लेकर ही कार्य करेंगे। वहीं मंदिर में न्यास बोर्ड का कार्यालय खोलने पर उन्होंने कहा कि कार्यशैली तैयार की जाएगी। उसी के अनुरूप मंदिर की देखरेख की जाएगी। उपाध्यक्ष सनी ने कहा कि जिस तरीके से पटना में महावीर मंदिर के नाम पर ट्रस्ट बनाकर कई चारे अस्पताल और विकास के काम किए जाते हैं, उसी प्रकार यहां भी कई तरह के विकास का काम किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मंदिरों पर सिर्फ जीजेपी वालों का ही कब्जा नहीं चलेगा। सनातन धर्म सभी हिंदुओं का धर्म है।

## शादी का झांसा देकर बनाया अवैध संबंध, प्राथमिकी दर्ज फेसबुक में हुई थी युवती से दोस्ती

**CRIME REPORTER RANCHI :**

चुटिया थाना में एक महिला ने भरत पाठक के खिलाफ शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए केस किया है। महिला का आरोप है कि उसकी शादी हावड़ा में रहने वाले अवधेश पांडे से हुई थी। वर्ष 2010 में फेसबुक से महिला की दोस्ती भरत पाठक से हुई। दोस्ती होने के बाद भरत पाठक अक्सर हावड़ा जाने लगा और महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ अवैध संबंध बनाता रहा। आरोपी ने कई बार महिला का रांची लाया और चुटिया इलाके में होटल में रखने के बाद अवैध संबंध बनाया। आरोपी



बार बार महिला को बोल रहा था कि वह अपने पति को छोड़कर उसके पास आ जाए। महिला जब आरोपी के पास आ गई तो आरोपी ने महिला को कई दिनों तक इधर उधर रखा लेकिन एक दिन आरोपी महिला को छोड़कर भाग निकला। महिला ने पुलिस को आरोपी का नाम पता दिया है। पुलिस का कहना है कि केस कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

## आगामी चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने विधेयक पारित कराया

# कांग्रेस महिला आरक्षण बिल की समर्थक, पर भाजपा की नीयत में दिख रही खोट : राजेश

**PHOTON NEWS RANCHI :**

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री ने देश की महिलाओं को भी नहीं बख्शा। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही महिला सशक्तिकरण और महिला बिल को संसद से पारित किए जाने की पक्षधर रही है। मगर आज चुनावों को देखते हुए महिला बिल पारित करने की याद भाजपा को आ गई। महिलाओं को अमर अधिकार और भागीदारी



प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से बातचीत करते राजेश ठाकुर व अन्य।

दिलाने की मंशा भाजपा को होती, तो 2010 में राज्यसभा से पारित बिल को ही लोकसभा में लेकर भाजपा को जाना चाहिए था। अगर बिल की

## NDA सरकार में OBC की उपेक्षा : आलमगीर

कांग्रेस विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल अतिरिक्त अमल में लाया जाए। साथ ही जातीय जनगणना करार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। हमारे नेता राहुल गांधी ने भी महिला आरक्षण विधेयक में महिलाओं के लिए आरक्षित प्रस्तावित 33 प्रतिशत सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोटा निर्धारित करने की मांग की है। उन्होंने आठवां रखते हुए यह बताया कि किस प्रकार से वर्तमान स्थिति में भारत सरकार के 90 सचिवों में से केवल 3 व्यक्ति ओबीसी के हैं और भारत के बजट का 5 प्रतिशत निर्धारित करते हैं, इससे साफ पता चलता है कि ओबीसी का प्रतिनिधित्व कितना कम है और वर्तमान की भाजपा नीत पण्डित सरकार का ओबीसी को लेकर किस प्रकार से असहयोगीत रवैया है।

नहीं है। हमारी नेत्री सोनिया गांधी ने सदन में नारी शक्ति वंदन अधीनियम-2023 का पूर्ण समर्थन करते हुए यह साफ कर दिया कि

कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है, जो वास्तव में महिला सशक्तिकरण की बात या उसको लागू करने को लेकर काम करती रही है।

## BRIEF NEWS

**बंडामुंडा में मनायी गयी गणेश चतुर्थी**



**ROURKELA :** रेलनगरी बंडामुंडा में गणेश पूजा विधि विधान के साथ पूजा के साथ प्रारंभ हो गई। बंडामुंडा में विभिन्न पूजा कमेटीयों द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। भगवान गणेश की भक्ति में पूरा बंडामुंडा डूबा रहा। सेक्टर ए का गणेश पूजा के 51 वर्ष माना रहा है। कमेटी द्वारा रोजाना प्रसाद श्रद्धालुओं को भोग वितरण किया जा रहा है।

**हाथी के उपद्रव से ग्रामीण परेशान, लोगों ने किया फोरिस्टर का घेराव**



**ROURKELA :** हाथियों के उपद्रव से परेशान होकर ग्रामीणों ने अंततः फोरिस्टर पर अपना गुस्सा निकाला। रात में जब बन्दई फोरिस्टर को हाथी आने की खबर मिली तो वे गांव पहुंचे थे, जहां लोगों ने उस पर हमला कर दिया। सुंदरगढ़ जिले के बनेई वन रेंज में दो हाथी लंबे समय से जंगल में सक्रिय हैं। बुधवार की रात इन दोनों हाथियों ने राउत रानी व बाबू नुआगांव में तीन-चार घंटों को तोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने कुपि भूमि में घुसकर फसलों को नष्ट कर दिया। रेंजर के मौके पर न जाने से गांव वालों में नाराजगी थी। आज सुबह जब फोरिस्टर घटनास्थल पर गया तो उसे रोका गया और लोगों ने विरोध भी दर्ज किया।

**बीमा जागरूकता अभियान रथ को किया गया रवाना**

**CHAIBASA :** जिला समाहरणालय परिसर में उपायुक्त अनन्व मितल ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत चलाए जाने वाले जागरूकता अभियान का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। लोगों को इस बीमा योजना के संबंध में प्रचार वाहन व नुकसंड नाटक के जरिए जानकारी दी जायेगी। कार्यक्रम में सर्वप्रथम उपस्थित अतिथियों को पुष्प गुच्छ व अंग वस्त्र प्रदान कर स्वागत किया गया। इसके बाद फीता काटकर प्रचार वाहन का लोकार्पण तथा परिसर में जीवन बीमा की आवश्यकताओं पर आधारित नुकसंड नाटक का प्रदर्शन किया गया।

**मुखिया ने की मासिक समीक्षा बैठक, विकास पर हुई चर्चा**

**CHAIBASA :** सदर प्रखंड अंतर्गत टेकराहातु पंचायत भवन में मुखिया चांदमनी कालुडिया ने गुरुवार को मासिक समीक्षा बैठक की। इसमें पंचायत के ग्राम मुंडा, स्कूलों के प्रधान शिक्षक-शिक्षिका, वार्ड सदस्य, आंगनवाड़ी सेविका, जलसहिष्णु, स्वास्थ्यकर्मी, राशन डीलर, जेएसएलपीएस सदस्य, प्रजा केन्द्र संचालक मौजूद थे। मुखिया ने पंचायत क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। स्कूलों के शिक्षकों से बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव तथा आधारभूत संरचना हेतु जरूरतों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। मुखिया को शिकायत मिली कि दो विद्यालयों के शिक्षक समय पर नहीं आते हैं, इस पर उन्होंने सुधार के निर्देश दिए। जल सहिष्णुओं से पंचायत में पेयजल आपूर्ति की स्थिति का प्रतिवेदन प्राप्त किया। साथ ही राशन डीलरों से लाभकों को खाद्यान्न देने में होने वाली परेशानी के संबंध में चर्चा की।

**भारी ट्रकों की आवाजाही से बालाडिंडिया-सिंहपोखरिया सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्ढे**

**CHAIBASA :** जिला पंचायत समिति सदस्य संघ के अध्यक्ष खेमकरण बिरुवा के नेतृत्व में संघ के लोगों ने आयरन और से लंदे भारी ट्रकों को बालाडिंडिया-सिंहपोखरिया रोड पर चल रहे सभी ट्रकों को रोक कर वापस करा दिया है। जिला पंसस के अध्यक्ष ने परिस्थिति को देखते हुए मंझारी थाना प्रभारी, हाटम्हरिया के थाना प्रभारी को फोन पर सूचना दिया एवं बालाडिंडिया चौक पर स्थित वन विभाग के चेकपोस्ट पर तैनात गार्ड को चेकपोस्ट में जाकर गाड़ी पार नहीं करने की निवेदन किया। खेमकरण ने इस संबंध में बताया कि सिंहपोखरिया-बालाडिंडिया मार्ग में भारी वाहनों को आवाजाही पूर्व से ही प्रतिबंधित है। लेकिन पिछले कुछ माह से इस मार्ग पर काफी मात्रा में आयरन और से लंदे ट्रक की आवाजाही हो रही है, जिससे ग्राम आसुरा के पास सड़क पर करीब तीन फीट का गड्ढा बन गया है।

# DEO का फरमान : स्कूल दो दिन में 16 गैर शैक्षणिक कार्यों को पूरा कर दें रिपोर्ट, नहीं तो रुकेगा वेतन

PHOTON NEWS JAMSHEDPUR :

जिला शिक्षा पदाधिकारी के एक आदेश ने सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर्स को परेशान कर दिया है। डीईओ कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि सभी स्कूल दो दिनों के अंतर 16 अलग अलग कार्यों को करके इससे संबंधित प्रतिवेदन अपने सीआरपी को उपलब्ध कराएं। विभाग की ओर से चेतावनी दी गयी है कि अगर निर्धारित समयविधि में यह कार्यों नहीं हुआ तो स्कूलों के प्रधानाध्यापक का वेतन

रोक दिया जाएगा। वहीं शिक्षकों का कहना है कि जो भी कार्य उन्हें दो दिन में पूरा करने को कहा गया है वह सभी गैर शैक्षणिक कार्य जो नियमतः उन्हें नहीं करना है। लेकिन विभाग जानबूझकर यह कार्य उनसे करा रहा है। वहीं नहीं इसके लिए चेतावनी भी जारी किया जा रहा है जो सही नहीं है। उनकी मानें तो उनका काम बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन विभाग इसकी जगह उनसे दूसरे कार्यों को कराने में लगा है। वहीं विभाग का कहना है कि वह लगातार इन कार्यों को लेकर

निर्देश जारी कर रहा है लेकिन स्कूल इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जिसके बाद कड़ा निर्णय लेना पड़ा है।  
**वर्जन:** स्कूलों को भी कार्य करने का निर्देश दिया गया है वह जरूरी कार्य हैं इसकी रिपोर्ट हमें राज्य कार्यालय को भेजनी है। बार बार आदेश के बाद भी स्कूलों ने समय पर इन कार्यों को नहीं किया। इस लिए अब उन्हें दो दिन के अंदर इन 16 कार्यों को करने का निर्देश दिया गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

## वर्कर्स कॉलेज के बाहरी छत का छज्जा गिरा ,बाल बाल बचे छात्र

PHOTON NEWS JAMSHEDPUR :

वर्कर्स कॉलेज जमशेदपुर में गुरुवार को कॉलेज के छत का छज्जा टूट कर गिर गया। जहां छत का छुकड़ा गिरा बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे। लेकिन वे बाल बाल बच गए। इसके बाद छात्र अक्रोशित हो गए और नारेबाजी करने लगे फिर।

छात्रों ने विश्वविद्यालय के नाम से एक मांग पत्र सौंपा। इसमें कहा गया कि 2 वर्ष पूर्व ही लाखों रुपए लगाकर रिनोवेशन का कार्य संपन्न हुआ था लेकिन ठेकेदार के द्वारा सिर्फ पोलिश कर काम किया गया यह सब कॉलेज की मिलीभगत से हुआ।



विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन देते छात्र। • फोटोन न्यूज

छात्रों ने कहा कि अगर यह मालवा छात्र के सर पे गिर जाता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। छात्रों ने मांग रखते हुए कहा कि कैम्पस में आए हर एक छात्र का बीमा विश्वविद्यालय करवाए, क्योंकि इस सरकारी व्यवस्था में हमेशा इस तरह की घटनाएं होते रहती है। पिछले दिनों रांची विश्वविद्यालय में भी एक छात्र की मौत हो गई थी। ज्ञापन सौंपने वालों में राजेश महतो, कामेश्वर प्रसाद, मौसमी कुमारी, इसिता कुमारी, आइसा कुमारी इत्यादि उपस्थित थे।

## इन कार्यों को अगले 48 घंटे में करने का निर्देश जारी

- एनआईपीएल उल्लास एप में कम से कम 10 निरक्षर व्यक्तियों का पंजीयन कराए।
- विद्यांजलि में विद्यालय का पंजीयन कराएं
- ई विद्यावाहिनी में छात्रों का प्रोग्रेशन
- सभी छात्रों का ई विद्यावाहिनी में आधार वेरिफिकेशन
- सभी छात्रों में ई विद्यावाहिनी में अकाउंट वेरिफाई करें
- विद्यालय विकास अनुदान राशि का कम से कम 70 प्रतिशत खर्च करें।
- पोशाक की राशि का शत प्रतिशत खर्च करें
- खेल झारखंड योजना की राशि का शतप्रतिशत खर्च करें

- बुक लिफ्टिंग का शत प्रतिशत खर्च करें
- एसएमसी ट्रेनिंग की राशि 100 प्रतिशत खर्च करें
- स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आयोजित कार्यक्रम का 5 फोटो दें
- इंस्पायर अवार्ड के तहत छात्रों के पंजीयन की सूची दें
- प्रोजेक्ट रेल के तहत आयोजित विकली परीक्षा का अंक संधारण रिपोर्ट दें
- सभी छात्रों का अकाउंट व आधार बनवाएं
- ई कल्याण में छात्रों का डाटा अपलोड करें
- जेसीईआरटी द्वारा ऑनलाई क्लास का संचालन कराएं

## छात्रों ने प्रिंसिपल को सौंपा पांच सूत्री मांग पत्र, समस्याओं के जल्द समाधान की मांग

PHOTON NEWS JAMSHEDPUR :

शहर के कॉलेजों में विद्यार्थियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। यही वजह है कि छात्र लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर एलबीएसएम कॉलेज के विद्यार्थियों ने अभाविय के नेतृत्व में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ एके झा को पांच सूत्री मांग पत्र सौंपा और जल्द से जल्द इन समस्याओं के समाधान की मांग की। उन्होंने कहा कि हर सुविधा के लिए छात्रों से राशि वसूली जाती है लेकिन सुविधाएं मिलती नहीं है। जो सही नहीं है। वहीं प्राचार्य डॉ एके झा ने



प्रिंसिपल को ज्ञापन देते छात्र। • फोटोन न्यूज

कहा कि वे इन सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान कराएंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में जमशेदपुर महानगर मंत्री अमन ठाकुर, एलबीएसएम कॉलेज मंत्री सोनू साहू, उपाध्यक्ष आस्तिक

पात्रो, हरे कृष्ण मंडल, सोशल मीडिया प्रभारी प्रिंस तिवारी, सह मंत्री किरण मंडल, कार्यकर्ता लोकेश मंडल अन्नु सुभम कृष सुनीता तिलकेश हिमांशु कुणाल आदि मौजूद थे।

## स्क्रब टाइफस के मरीजों की संख्या पहुंची 206 एक ओर कार्रवाई, दूसरी ओर नजरे इनायत

PHOTON NEWS ROURKELA :

सुंदरगढ़ में स्क्रब टाइफस के छह और मरीज पाए गए हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक जानकारी दी गई है कि सुंदरगढ़ में स्क्रब टाइफस के 206 मरीज पाए गए हैं, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। कल 7 मामले सामने आये थे। रविवार 11, सोमवार 3 का पता चला था। इसी तरह मंगलवार को भी 10 पॉजिटिव केस सामने आए। इसके साथ ही यह संख्या 206 तक पहुंच गई है। कल तक संक्रमित हुए लोगों में से 10 लोग दूसरे राज्यों के हैं जबकि 9 अन्य जिलों के हैं। सीडीएमओ ने लोगों को जागरूक करने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा संक्रमण की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे



अस्पताल में गुटे लोग। • फोटोन न्यूज

विभिन्न उपायों की जानकारी दी। हालांकि, हर दिन संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। हालांकि, यह सुंदरगढ़ जिला सामान्य अस्पताल और राउरकेला सरकारी अस्पताल में की गई जांच की रिपोर्ट है। निजी तौर पर प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक, संक्रमित लोगों की संख्या 500 से

अधिक बताई जा रही है। बताया गया है कि अकेले राजगांगपुर के एक निजी क्लिनिक में स्क्रब टाइफस के 150 से अधिक मामले सामने आए हैं। 14 तारीख को जिले में राज्य में सबसे अधिक 30 मामले दर्ज किए गए। पिछले जनवरी में केवल चार की पहचान की गई थी। तब से यह बढ़कर 183 हो गया है। सीडीएमओ ने बताया

PHOTON NEWS ROURKELA :

राउरकेला नगर निगम जहां एक ओर अवैध कब्जे के खिलाफ अपनी कार्रवाई से सुखियों में है, वहीं दूसरी ओर कई व्यवसायियों पर उनकी नजर इनायत है। जो की लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। नालियों पर अवैध कब्जा कर बने दुकान और मकान को ढहाने की कार्रवाई नगर निगम की ओर से पिछले कुछ सालों से शुरू की गई है। लेकिन अभी इस कार्रवाई के जद में कई लोग आने से बचे हुए हैं। क्योंकि इन लोगों पर नगर निगम के अधिकारियों का आश्रीवाद बना हुआ है।



साई अपार्टमेंट। • फोटोन न्यूज

अपार्टमेंट का निर्माण गैर कानूनी तौर पर किया गया है। प्लेट निर्माण के लिए मुख्य नाली को डाइवर्ट कर दिया गया है। जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति आए दिन बनी रहती है। जबकि कोर्ट के आदेशानुसार किसी भी हाल में शहर के मुख्य नालियों का रख नहीं बदला जाएगा।

ऐसा ही एक मामला राउरकेला के डेली मार्केट स्थित मिश्रा लेन माडू महाराज गली का है। यहां पर साई

## महिला असिस्टेंट कलेक्टर सुष्मिता मिंज की मौत का राज गहराया

PHOTON NEWS ROURKELA :

महिला असिस्टेंट कलेक्टर सुष्मिता मिंज 16 तारीख को कार्यालय आयीं और घर नहीं लौटीं। शनिवार सितंबर को सुष्मिता के भाई संदीप ने मिंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। उस दिन पुलिस ने सुष्मिता को एक होटल से बरामद कर लिया था। लेकिन सुष्मिता ने अपने भाई के साथ घर जाने से इनकार कर दिया। मंगलवार को असिस्टेंट कलेक्टर सुष्मिता का शव ट्रैफिक गेट के पास सेंसरी पार्क तालाब से बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस घटना की जांच कर रही है। हालांकि



उन्के भाई संदीप ने कहा कि सुष्मिता डिप्रेशन में थीं और उनकी हत्या की गई है।

असिस्टेंट कलेक्टर सुष्मिता की मौत रहस्यमयी होती जा रही है। शहर के एक पॉश होटल से पुलिस द्वारा

बरामद किए जाने के बाद उसने घर जाने से इनकार कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि घरवाले उसे मानसिक पीड़ा दे रहे हैं। अब सुष्मिता के भाई संदीप ने बहन के मौत पर सदैह जलाकर पूरी घटना को रहस्यमय बना दिया है। हालांकि पुलिस ने इस घटना को तुल पकड़ता देख जांच को तेज कर दी है।

ज्ञात हो कि सहायक समाहर्ता सुष्मिता मिंज का शव मंगलवार की शाम राउरकेला के संवेदी पार्क तालाब से बरामद किया गया था। सुष्मिता राउरकेला एडीएम कार्यालय के भूमि अनुभाग में कार्यरत थीं।

## कुंवारी युवतियां नदी से लाई जावा, करमा 25 को

PHOTON NEWS CHAIBASA :

शहर के सातों अखाड़ा में जावा जागणर किया गया, रात जग्गा कर सुबह सुबोधेदव होने से पूर्व कुंवारी लड़कियां उपवास में नदी के अंदर से टोकरी में बालू उठाकर मांदर, नगाड़ा की थाप में नाच-गान करते हुए पाहन पुजारी के घर लेकर आयीं। उसके बाद उपवास लड़कियों के द्वारा उस बालू में जावा मिलाकर पांच दिन तक पाहन पुजारी के घर हर रोज सुबह-शाम उसे घुप-घूमन दिखाकर एवं नृत्य-संगीत कर सेवा करेगी। उसके पांच दिन बाद 25 सितंबर को उरांव समुदायों का महान त्वहार भादो एकादशी करम



नदी की मिट्टी में लेकर आती आदिवासी युवतियां। • फोटोन न्यूज

पूजा बहुत ही हर्षोल्लास व पारम्परिक नृत्य-संगीत, श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर समाज में मुखिया लालू कुजूर पाहन पुजारी फागु खलखो, दुर्गा कुजूर, मंगरू टोप्पो, चमरू लकड़ा, शम्भू

टोप्पो, मथुरा कोया, खुदिया कुजूर, सीताराम मुंडा, जगरनाथ लकड़ा, राजेन्द्र कच्छप, राजु तिग्गा, इन्द्रोदय कच्छप, बंधन खलखो, राजु कुजूर, कृष्णा कच्छप, शम्भु तिकी, कृष्णा मुण्डा, बुधराम कोया राहुल

कुजूर, रूपेश कुजूर, निशांत मिंज, कर्मा कुजूर, निवेश लकड़ा, रमेश लकड़ा, संजय कुजूर, देवरथ कुजूर, जगरनाथ टोप्पो, अविनाश कुजूर, रवि कुजूर, विश्वनाथ लकड़ा, बिरसा लकड़ा, रवि तिकी, बंधन मिंज, सुनील खलखो, प्रीति तिकी, शिल्पा तिग्गा, मोनी कच्छप, पुतुल कुजूर, पुनम लकड़ा, बिंदिया कच्छप, संध्या टोप्पो, सुमन तिकी, पार्वती कुजूर, भारती कुजूर, किरण कोया, सरस्वती लकड़ा, सोनी कुजूर, सुमन कुजूर, नंदनी टोप्पो, मयूरी लकड़ा, दुर्गा टोप्पो आदि काफी संख्या में युवक-युक्तियां शामिल थीं।

## महिला कॉलेज में मनाई गई लाको बोदरा जयंती व TEACHERS DAY

## डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं ओत गुरु कोल बोदरा के संघर्षों को कमी नहीं मुलाया जा सकता : प्रीति बाला

PHOTON NEWS CHAIBASA :

महिला कॉलेज चाईबासा में लाको बोदरा जयंती एवं शिक्षक दिवस मनाई गई। वारंगशक्ति लिपि के जनक ओत गुरु कोल लाको बोदरा एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में महिला कॉलेज के प्राचार्य प्रीति बाला, हो विभागाध्यक्ष चंद्रमोहन बिरुवा, आदिवासी हो समाज युवा महासभा के प्रदेश संगठन सचिव राहुल पुरती एवं प्रदेश संस्कृतिक सचिव जगन्नाथ हेस्सा इत्यादि को बतौर अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। छात्राध्यक्षों ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।



शिक्षक को पुष्प देकर सम्मानित करती छात्रा। • फोटोन न्यूज

इस कार्यक्रम के माध्यम से 21 अगस्त 2023 को हो भाषा आंदोलन शामिल छात्राओं के प्रति आदिवासी हो समाज युवा महासभा के प्रदेश संगठन सचिव राहुल पुरती और सांस्कृतिक

हासवा एवं सुशीला बिरूली शामिल हैं।

महिला कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं ओत गुरु कोल बोदरा के संघर्षों को कभी नहीं मुलाया जा सकता हमें इनके प्रेरणा स्रोत बनकर उनके विचारों का आत्मसात करना चाहिए।

आदिवासी हो समाज युवा महासभा के प्रदेश संगठन सचिव राहुल पुरती ने इस अवसर पर कहा कि लाको बोदरा के संघर्षों के बदीलत आज हम हो समाज अपनी भाषा को लिपि के रूप में पहचान रहे हैं भारतवर्ष में हमारी हो भाषा को संवैधानिक मान्यता नहीं दिया गया है इसे संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए हमें ही

आगे आना होगा, संघर्ष करना होगा और आंदोलन करना होगा।

प्रदेश सांस्कृतिक सचिव जगन्नाथ हेस्सा ने लाको बोदरा के उपलब्धियों पर दृष्टि डालते हुए कहा कि साहित्य के विकास और लिपि का संरक्षण देकर समाज को एक नई दिशा दी साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्राओं को अपनी भाषा और साहित्य के विकास के लिए स्वयं से ही साहित्य की रचना करना होगा। इस मौके पर बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ ओमीना मानकी, एवं सोना भाई कोड़ा, सावित्री बिरुआ, रेशमी बोदरा, सावित्री लिंयांगी, पालो बिकरा, सोमवरी दोराइबुरु, जोमना मरला, पंचमी पुरती, मोती तापेय आदि उपस्थित थे।

## वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ रहा हिंदी का महत्व : लक्ष्मी कुमारी

PHOTON NEWS JAMSHEDPUR :

एबीएम महाविद्यालय, जमशेदपुर के स्नातक तथा इंटरमीडिएट हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 'हिंदी पखवाड़ा समारोह' का आयोजन गुरुवार को किया गया। कार्यक्रम की शुभारंभ प्राचार्य डॉ. विजय कुमार पोयूष ने दीप प्रज्वलित कर किया। हिन्दी विभाग की सहायक प्राध्यापिका लक्ष्मी कुमारी ने स्वागत वक्तव्य देते हुए कहा कि हिन्दी भाषा महत्व लगातार वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है। इसके पश्चात विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इंटरमीडिएट वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी कोमल कुमारी एवम 'संचिता कुमारी' ने नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक छठवें सेमेस्टर की छात्रा आकांक्षा कुमारी ने भाषण, संजय कुमार और

मुस्कान कुमारी ने कविता प्रस्तुत किया। बारहवीं कक्षा की व्यूटी कुमारी ने हिंदी पर शायरी, किरण कुमारी ने कविता पाठ तथा दिव्या कुमारी ने भाषण प्रस्तुत किया। हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष के आशीष कुमार एवं नीतू कुमारी महतो ने भाषण के माध्यम से हिन्दी के महत्व को रेखांकित किया। महाविद्यालय के प्राचार्य ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए हिन्दी की उत्पत्ति, विकास, उपभाषाएं एवम हिंदी की वैश्विक प्रसंगिकता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन स्नातक छठवें सेमेस्टर की विद्यार्थी मुस्कान कुमारी ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन इंटरमीडिएट हिंदी शिक्षिका 'प्रेमलता कुमारी' ने किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के सभी संकाय के शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ विद्यार्थीगण भी सम्मिलित थे।

## झामुमो रिश्तत मामला: सुप्रीम कोर्ट 1998 के फैसले पर पुनर्विचार करेगी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय की सात सदस्यीय पीठ चर्चित 1993 झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) रिश्तत मामले में शीर्ष अदालत के 1998 के पांच सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करेगी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने बुधवार को यह फैसला लिखा।

## घरेलू विमान यात्रियों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 38.27 प्रतिशत की वृद्धि

नई दिल्ली। इस साल के बीते आठ महीनों में देश के घरेलू विमान यात्रियों की संख्या तकरीबन 12 करोड़ हो गयी जो बीते साल की इस अवधि में हवाई यात्रियों की संख्या से 38 प्रतिशत अधिक है। नागर विमान मंत्रालय ने गुरुवार को यहां बताया कि घरेलू विमान उद्योग ने 2023 के पहले आठ महीनों के दौरान यात्री यातायात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। नवीनतम डेटा विश्लेषण के अनुसार, जनवरी से अगस्त 2023 तक घरेलू एयरलाइनों द्वारा यात्रियों की संख्या 11 करोड़ 90 लाख 62 हजार तक पहुंच गई, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 38.27 प्रतिशत की वृद्धि है।

## दिल्ली में स्पेशल 26 फिल्म से प्रेरित अपहरण करने वाला अपराधी गिरफ्तार

नई दिल्ली। चंडीगढ़ पुलिस का उपाधीक्षक (डिट्टी सुपरिटेण्डेंट) बनकर वसूली करने वाले जालसाज को दिल्ली अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। स्पेशल 26 फिल्म से प्रेरित होकर अपराधी ने एक व्यक्ति का अपहरण कर उससे पांच लाख रुपये राशि की वसूली की है। यह घटना तीन साल पहले की है और तब से आरोपी फरार चल रहा था।

## ईपीएफओ में जुलाई 18.75 लाख अंशधारक जुड़े

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने जुलाई 2023 में 18.75 लाख नए अंशधारक जोड़े हैं जिनमें 3.86 महिला अंशधारक हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने यहां बताया कि इस वर्ष जुलाई में पिछले महीने (जून) की तुलना में 85,932 अधिक अंशधारक जोड़े गये हैं। पिछले तीन महीनों से नये अंशधारकों की वृद्धि जारी है।

## जुलाई में कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 19.88 लाख कर्मचारी शामिल

नई दिल्ली। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में मौजूदा वर्ष जुलाई में 19.88 लाख नए कर्मचारियों का ईएसआई योजना में नामांकन किया गया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय



ने यहां जारी आंकड़ों में बताया कि जुलाई, 2023 में 19.88 लाख नए कर्मचारी जोड़े गए हैं। इसी माह में लगभग 27,870 नए प्रतिष्ठानों का पंजीयन किया गया है और इन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा के आंतर्गत लाया गया है।

## सम्मिट इंडिया का अंतरराष्ट्रीय अभियान

नई दिल्ली। भारत की अध्यक्षता में जी20 का सदस्य बने अफ्रीकी संघ के देशों में भारत को लेकर किस तरह का उत्साह और सोच बनी है इसका एक नजारा इस साल के अंत में सम्मिट इंडिया के अंतरराष्ट्रीय अभियान के तहत अफ्रीकी महाद्वीप के केन्या में मैराथन दौड़ का आयोजन में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही केन्या सरकार के सहयोग से भारत वंशी अफ्रीकन जनों के लिये अयोध्या की तरह एक भव्य राम मंदिर बनाने की पहल की जा रही है।

सम्मिट इंडिया के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने केन्या चैप्टर का अध्यक्ष डॉ स्वरूप रंजन मिश्रा को नियुक्त किया है जो वहां के संसद सदस्य हैं और सत्तारूढ़ पार्टी के राष्ट्रीय संगठक भी है।

सम्मिट इंडिया का ब्रांड भारत और वसुधैव कुटुम्बक के महाअभियान के दिशा में वियतनाम में अंतराष्ट्रीय व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संवाद की शुरुआत भी इस वर्ष दिसम्बर में एक महासम्मेलन की जरिये शुरू किया जाएगा। इसके लिए वियतनाम चैप्टर का अध्यक्ष जय प्रकाश मिश्रा नियुक्त किया गया है।

सम्मिट इंडिया के महासचिव महेश वर्मा ने आज यहाँ यह जानकारी देते हुए बताया कि ब्रांड भारत आज जिस कदर अफ्रीका में सर चढ़कर बोल रहा है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता के बीच केन्या में राम मंदिर का निर्माण करने से जाहिर होता है। इससे भारत के विश्व बंधुत्व को भी बल मिलेगा। इसके लिये एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही श्री जाजू के नेतृत्व में केन्या जाएगा। जिसमें उत्तर प्रदेश चैप्टर के प्रमुख पूर्ण डबवर सहित 10 लोग को शामिल किया गया है। श्री श्री रविशंकर और श्री राम जन्म भूमि न्यास समिति के सदस्य भी इसमें होंगे। इसी प्रकार से वहीं विश्व के नंबर वन धावकों के साथ मैराथन के जरिये मदिर निर्माण से पूरे अफ्रीका महाद्वीप के देशों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए डॉ मिश्रा की बड़ी भूमिका होगी। श्री वर्मा ने बताया कि डॉ मिश्रा का जन आरोग्य संस्थान पूरे अफ्रीकावासियों को सेवा देता है ऐसे में उनके हाथ इसका बागडोर देना उचित प्रतीत हुआ और सम्मिट इंडिया के केंद्रीय संगठन ने इस पर अपनी सहमति की मुहर लगाई है। वियतनाम में वहां के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष रहे भारतीय मूल के श्री जय प्रकाश का अनुभव भारत के साथ वियतनाम की व्यापारिक और सांस्कृतिक साझेदारी को सांझा करने की एक बड़ी पहल दिसम्बर में होगी।

## एक और स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल में लिखा- बम से उड़ा दूंगा, मौके पर बम निरोधक दस्ता

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के एक और स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस और अन्य टीम मौके पर पहुंच गई हैं और जांच की जा रही है। इससे पहले भी कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। जानकारी के अनुसार, आरके पुरम स्थित एक स्कूल में धमकी भरा ई-मेल आया है। मेल में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सूचना के बाद दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची।

आरके पुरम सेक्टर 3 लाल बहादुर शास्त्री स्कूल की प्रिंसिपल के पास बम रखने की मेल आई। इसके बाद पुलिस को 8-25 की कॉल की गई। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। तुरंत स्कूल को खाली

कराया गया है। स्कूल की जांच की गई। जांच के बाद सूचना



फर्जी मिली। अमृता पब्लिक स्कूल में बम रखने की मिली थी सूचना इससे पहले 16 मई को दिल्ली के साकेत के पुष्प विहार स्थित अमृता पब्लिक स्कूल में बम रखे होने की सूचना मिली थी। बम की सूचना ईमेल के जरिए दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य

टीम मौके पर पहुंची थी। स्कूल में चेकिंग अभियान शुरू किया गया था। सभी जगह चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान पुलिस को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।

26 अप्रैल को दिल्ली पब्लिक स्कूल को मिली थी धमकी

26 अप्रैल को मथुरा रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल को ई-मेल के जरिए बम की धमकी

मिली थी। स्कूल प्रशासन की ओर से 8:10 पर पीसीआर कॉल के जरिए स्कूल में बम होने की जानकारी दी थी। जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। जांच के बाद संदिग्ध चीज नहीं मिली थी।

12 अप्रैल को मिली थी इंडियन पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी

12 अप्रैल को साउथ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी थाना इलाके के सादिक नगर में स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की मिली थी। धमकी के बाद अफरा-तफरी मच गई थी। स्कूल प्रशासन द्वारा परिजनों के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज जारी कर यह बताया गया कि वह तुरंत स्कूल पहुंचकर अपने बच्चों को घर ले जाएं। यह मैसेज मिलते ही स्कूल के बाहर काफी भीड़ जमा हो गई थी। हालांकि जांच के बाद कुछ नहीं मिला था

## सुप्रीम कोर्ट लोकसभा, विधानसभाओं में एससी/एसटी को आरक्षण बढ़ाने के सवाल पर विचार करेगा

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अगले 10 सालों तक आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान करने वाले संविधान के 104वें संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता पर विचार का बुधवार को फैसला किया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आरक्षण बढ़ाने के प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने के लिए 21 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। पीठ ने यह स्पष्ट किया कि वह पहले के संशोधनों के माध्यम से एससी/एसटी आरक्षण के लिए दिए गए पिछले विस्तार की वैधता पर विचार नहीं करेगी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर विचार करेगी कि क्या संविधान (104वां संशोधन) अधिनियम 2019 असंवैधानिक है और क्या अनुच्छेद 334 के तहत आरक्षण की अवधि की समाप्ति के लिए निर्धारित अवधि को बढ़ाने के लिए संशोधन की घटक शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक रूप से वैध है। यह सवाल संविधान के अनुच्छेद 334 से उत्पन्न हुआ, जिसमें प्रावधान था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी/एसटी और एंग्लो-इंडियन के लिए आरक्षण संविधान के प्रारंभ होने के 10 साल बाद प्रभावी नहीं होगा।

यह सवाल संविधान के अनुच्छेद 334 से उत्पन्न हुआ, जिसमें प्रावधान था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी/एसटी और एंग्लो-इंडियन के लिए आरक्षण संविधान के प्रारंभ होने के 10 साल बाद प्रभावी नहीं होगा।

## कर्नाटक को झटका! सर्वोच्च न्यायालय ने कावेरी जल प्राधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप से किया इनकार

ग्रेटर नोएडा। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। दरअसल आदेश के तहत कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को आदेश दिया था कि वह तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी जारी करे। प्राधिकरण ने 18 सितंबर को यह आदेश दिया था और आदेश के तहत कर्नाटक को 28 सितंबर तक तमिलनाडु को पानी देना था।

हालांकि सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे कर्नाटक ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जहां से अब कर्नाटक सरकार को झटका लगा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण के आदेश में कोई भी हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण को हर 15 दिन में बैठक करने का निर्देश दिया है। कावेरी जल विवाद बीते दिनों उस वक्त फिर चर्चा में आ गया, जब तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक से अपने जलाशय के जल में से 24 हजार क्यूसेक पानी प्रतिदिन देने की

मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं कर्नाटक का कहना है कि इस बार कम बारिश की वजह से राज्य को



सूखे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से कर्नाटक ने पानी छोड़ने में असमर्थता जताई थी। क्या है कावेरी जल विवाद कावेरी नदी को 'पौनी' कहा जाता है। यह दक्षिण पश्चिम कर्नाटक के पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। यह नदी कर्नाटक से तमिलनाडु राज्यों में होकर पुडुचेरी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है।

कावेरी जल विवाद आजादी से पहले के दो समझौतों 1892 और 1924 के चलते है। इन समझौतों के तहत किसी भी निर्माण

परियोजना, जैसे कावेरी नदी पर जलाशय के निर्माण के लिए ऊपरी तटवर्ती राज्य को निचले तटवर्ती राज्य को अनुमति लेना जरूरी है। साल 1974 में कर्नाटक ने तमिलनाडु की सहमति के बिना पानी मोड़ना शुरू कर दिया, जिससे दोनों राज्यों में पानी को लेकर विवाद हो गया। इस मुद्दे को हल करने के लिए साल 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई।

परियोजना, जैसे कावेरी नदी पर जलाशय के निर्माण के लिए ऊपरी तटवर्ती राज्य को निचले तटवर्ती राज्य को अनुमति लेना जरूरी है। साल 1974 में कर्नाटक ने तमिलनाडु की सहमति के बिना पानी मोड़ना शुरू कर दिया, जिससे दोनों राज्यों में पानी को लेकर विवाद हो गया। इस मुद्दे को हल करने के लिए साल 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई।

## सांसदों को मिली नारी शक्ति वंदन विधेयक की डिजीटल प्रतियां

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिस्ला की पहल पर नये संसद भवन में सदन के कामकाज में कागज का उपयोग कम करने के लिए सांसदों को विधेयकों एवं अन्य संसदीय दस्तावेज डिजीटल प्रारूप में उपलब्ध कराने का फैसला किया है।

लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार श्री बिस्ला ने नयी संसद के निर्माण शुरू होने के समय ही डिजीटल कामकाज को बढ़ावा देने के लिए

नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए। सूत्रों के अनुसार संसदीय दस्तावेज सदन के पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं और पिछले तीन वर्षों में सदस्य आसानी से इन्हें डाउनलोड करके इनका उपयोग कर रहे हैं। बल्कि संसद सदस्यों ने डिजीटल तकनीक की मदद से विधेयकों और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच और अध्ययन के बाद कई

महत्वपूर्ण कानून पारित किए हैं। सूत्रों ने कहा कि पोर्टल का उपयोग करना बहुत आसान है और इसके प्रभावी उपयोग के लिए सदस्यों और उनके निजी कर्मचारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। सितंबर-2020 से ही इस सुविधा का उपयोग किया जा रहा है और यह पहल पर्यावरण-अनुकूल और पेपरलेस कार्यस्थल को बढ़ावा देने की संसद की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। फिर भी, जब कभी सचिवालय के समक्ष

सदस्यों द्वारा कोई मांग रखी जाती है तो उन सदस्यों को संसदीय दस्तावेजों और विधेयकों की कागजी प्रतियां भी उपलब्ध कराई जाती हैं। सूत्रों ने बताया कि वर्ष 2020 से सुस्थापित प्रथा को ध्यान में रखते हुए, संविधान (128वां संशोधन) विधेयक (नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023) की डिजीटल कॉपी सदस्यों के पोर्टल पर पहले ही अपलोड कर दी गई थी। इसके अलावा, संसद के नए भवन में,

इस विधेयक को लोकसभा कक्ष में प्रत्येक सदस्य के लिए उपलब्ध कराए गए आधुनिक डेस्कटॉप डिजीटल मल्टी-मीडिया यूनिट पर भी अपलोड किया गया था। इस प्रकार सभी सदस्यों के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक उपलब्ध था जो उनके डेस्कटॉप उपकरणों पर अपलोड किया गया था। इसके अलावा, जब भी मांग की गई, उन सदस्यों को कागजी प्रतियां भी उपलब्ध कराई गईं।

## भारत और अमेरिकी सेना हिन्द प्रशांत क्षेत्र के सेना प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी करेंगी

नई दिल्ली। भारतीय और अमेरिकी सेना अगले सप्ताह सोमवार से यहां हिन्द प्रशांत क्षेत्र के सेना प्रमुखों के 13 वें सम्मेलन की मेजबानी करेंगी जिसमें 35 देशों के 150 प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की संभावना है। सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एम वी सुचिन्द्र कुमार ने बुधवार को यहां मानकशॉ सेंटर में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस सम्मेलन का थीम 'शांति के लिए एकजुट-हिन्द प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता' है। सम्मेलन के दौरान हिन्द प्रशांत क्षेत्र के देशों के सेना प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षा तथा अन्य प्रसांगिक विषयों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिन्द प्रशांत क्षेत्र में



परस्पर समझ, संवाद और मैत्री के माध्यम से शांति तथा स्थिरता को बढ़ावा देना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान भी उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का आयोजन मानकशॉ सेंटर में

किया जायेगा और इसके विभिन्न सत्रों में करीब 150 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन की शुरुआत सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और अमेरिकी सेना के उप प्रमुख जनरल रेंडी जॉर्ज के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन से होगी।

## कनाडा संग रिश्ते हो रहे और तल्ल, भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी किया परामर्श

नई दिल्ली। सरकार ने कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों, राजनीति प्रेरित घृणा अपराधों और अपराधिक हिंसा को देखते हुए वहां रह रहे सभी भारतीय नागरिकों और वहां यात्रा पर जाने के इच्छुक लोगों से अत्यधिक सावधानी बरतने और भारतीय मिशनों के सतत संपर्क में रहने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय ने आज यहां एक यात्रा परामर्श जारी करके यह आग्रह किया है। कनाडा में हाल ही

में विशेष रूप से उन भारतीय राजनयिकों और भारतीय समुदाय के उन वर्गों को धमकाने का काम किया गया है जो भारत विरोधी एजेंडे का विरोध करते हैं। परामर्श में कहा गया है, इसलिए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे कनाडा के उन क्षेत्रों और संभावित स्थानों की यात्रा करने से बचें जहां ऐसी घटनाएं हुई हैं।


परामर्श में कहा गया है, इसलिए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे कनाडा के उन क्षेत्रों और संभावित स्थानों की यात्रा करने से बचें जहां ऐसी घटनाएं हुई हैं।

## वृहद भारत फेडरेशन बनाने के लिए मगध फाउंडेशन सरकार को देगी प्रस्ताव : त्रिपाठी

नई दिल्ली। मगध फाउंडेशन की प्रस्तावित कोर कमेटी की बैठक के आयोजन के संदर्भ में मंगलवार को यहाँ प्रेस क्लब में मीडियाकार्मियों के साथ एक सम्मेलन आयोजित किया गया। मीडिया सम्मेलन में मीडियाकार्मियों को संबोधित करते हुए मगध फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष के एन त्रिपाठी ने कहा कि मगध फाउंडेशन 250 ई0 पूर्व मगध साम्राज्य से अलग हुए देशों जो कि भारत के करीबी रिश्ते वाले देश हैं, उनके साथ मिलकर एक ग्रेटर इंडिया फेडरेशन (वृहद भारत संघ) बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को सौंपेगी।

श्री त्रिपाठी ने कहा कि भविष्य में ग्रेटर इंडिया फेडरेशन के लिए एक एकीकृत सैन्य बल बनाने की भी योजना बनाई जाए। ग्रेटर इंडिया फेडरेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने पर भी केन्द्रित है ताकि महासंघ के मित्र देशों जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार (बर्मा) और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों की मदद की जा सके। यह देश भारत के साथ सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध साझा करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि सीमा सुरक्षा और कल्याण के महत्व को

ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ग्रेटर इंडिया फेडरेशन के निर्माण की तरफ ध्यान दे। ज्ञातव्य हो कि मगध फाउंडेशन अपने कार्य को भारत में तेजी से कर रही है। देश के



सभी राज्यों से आये हुए संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एनडब्ल्यूसी) के सदस्यों को बैठक 21 सितम्बर 2023 को कान्स्टीट्यूशन क्लब नयी दिल्ली में होगी। उस बैठक में ग्रेटर इंडिया फेडरेशन निर्माण के लिए और भारत के प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए संवैधानिक संशोधन करने जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा होगी एवं फैसला लिये

जाए के पश्चात इस फैसले को मांग के रूप में भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया को सुपुर्द किया जाएगा।

इस सम्मेलन में केंद्रीय समिति के सदस्य राकेश शंकर

# यशोभूमि का सामाजिक संदेश



मृत्युंजय दीक्षित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर राजधानी दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी व कॉन्फ्रेंस सेंटर यशोभूमि को राष्ट्र को समर्पित किया। इसी नवीन प्रांगण से 18 प्रकार के पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों की लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से सुथर, बड़ई, नाव निमाता, अत्रकार, लोहे का काम करने वाले, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, काँवर बुनकर, गुड़िया और शिल्लोना निमाता, पारंपरिक सुनार, कुम्हार, जूते बनाने वाले, थैयौड़ा और टूल किट निमाता, ताला बनाने वाले, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले राजमिस्त्री, बाल काटने वाले, मालाकर, कपड़े धोने वाले, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले आदि कार्य कार्य करने वाले हुनरमंद भाई बहनों को तीन लाख रुपये तक बिना गारंटी ऋण देने की घोषणा की गई। विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत रिकल अपग्रेडेशन के लिए ट्रेनिंग और 500 रुपये का स्टार्टअप भी दिया जाएगा और यह हुनरमंद अपने हाथों से जो उत्पाद तैयार करेंगे उन तैयार उत्पादों के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग और उनकी मार्केटिंग में भी सरकार की ओर से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रारंभिक चरण में विश्वकर्मा योजना में 13000 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह योजना तीन लाख कामगारों के लिए विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर एक अनुमत्त उपहार है। यह माना जा रहा है कि इस योजना से 30 लाख परिवारों की वित्तीय स्थिति में बड़ा परिवर्तन आएगा। इस योजना से छोटे व्यवसायों और श्रमिकों को अपना व्यापार बढ़ाने और आर्थिक स्थिति सुधारने में भी मदद मिलेगी। समाज के लाखों पारंपरिक कौशल वाले भाई-बहनों के लिए विश्वकर्मा योजना आशा की नई किरण बनकर आई है। इस योजना के माध्यम से भारत के स्थानीय सामान को वैश्विक बनाने में भी बहुत सहायता मिलेगी। समेलन में प्रधानमंत्री ने उपस्थित विश्वकर्माओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब बैंक आपको गारंटी नहीं मानता है तो मोदी आपको गारंटी देता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई विश्वकर्मा योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व समाज के वंचित वर्ग के लोगों का मन जीतने की भी एक बड़ी पहल की है। यह पारंपरिक कार्य करने वाले अधिकतर कारीगर व शिल्पकार समाज के लोग इन्हीं वर्गों से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज के इन वर्गों को सशक्त करने के लिए संकल्पवान है क्योंकि जब से प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का युग प्रारंभ हुआ है और उसके पूर्व से भी समाज का यह वर्ग भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने यशोभूमि के लोकार्पण और विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ के उपलक्ष्य पर गहरे सामाजिक और राजनीतिक निहितार्थ वाला वक्तव्य दिया। प्रधानमंत्री मोदी की यह विशिष्ट कार्यशैली रही है कि अब तक उन्होंने जितने भी लोकार्पण किये हैं उन सभी अवसरों पर सर्वप्रथम वह श्रमिकों का सम्मान करते हैं व उनका मनोबल बढ़ाते हैं। यशोभूमि में भी उन्होंने सर्वप्रथम वहां काम करने वाले सभी प्रकार के विश्वकर्मा भाई-बहनों से बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में भारत मंडप और यशोभूमि जैसे सेंटर दिये हैं जो विकसित भारत का स्वप्न तो पूरा करेंगे ही साथ ही आगामी समय में लाखों युवाओं के लिए रोजगार के वाहक बनेंगे। दोनों ही केन्द्रों पर विश्व भर के लोग अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, बैठकों और प्रदर्शनों के लिए आएंगे इससे लाखों युवाओं को रोजगार और पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों को भी काम मिलेगा। आगामी दिनों में भारत मंडप और यशोभूमि कॉन्फ्रेंस पर्यटन के केन्द्र बिंदु बनकर भी उभरने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आगामी पर्वों को देखते हुए देशवासियों से लोकल उत्पाद खरीदने का एक बार फिर आग्रह करते हुए कहा कि जिसमें हमारे विश्वकर्मा साथियों की छाप और भारत की मिट्टी की महक हो वही उत्पाद उपयोग करें। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के माध्यम से सनातन संस्कृति का भी स्पन्देष्ट दिया है क्योंकि हिंदू धर्म के आगामी दिनों में जितने भी पर्व व तिथियां आने वाली हैं उसमें जितनी भी छोटी से छोटी सामग्री व उत्पाद प्रयोग में लाए जाते हैं वह सभी वंचित समाज के इन्हीं पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों की मदद से ही बनाये जाते हैं। एक कालखंड बीच में ऐसा भी आ गया था कि हमारे पारंपरिक कारीगर व शिल्पकार जो उत्पाद बनाते व बेचते थे उस पर चीनी उत्पादों का दबदबा होता जा रहा था और हमारे कारीगर अपनी कला छोड़ने को मजबूर हो रहे थे। नई विश्वकर्मा योजना से ऐसे ही कारीगरों की कला को नया जीवन मिलेगा।

लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।

# जी-20 का नई दिल्ली घोषणापत्र कार्रवाई का आह्वान

## ANALYSIS

इंदीवर पांडे

भारत की अध्यक्षता में जी-20 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'अमृतकाल' के विजन से प्रेरित रहा, जहां अर्थव्यवस्था और समाज के सभी क्षेत्रों में 'नारी शक्ति' को सराहा जाता है। इस विजन के आधार पर भारत की जी-20 की अध्यक्षता ने पहली बार महिलाओं के विकास की जगह, अपना ध्यान 'महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास' पर केंद्रित किया। महिला-पुरुष समानता के पक्षधर दशकों से इस महत्वपूर्ण मुद्दे को वैश्विक एजेंडे में सबसे आगे लाने का प्रयास करते आए हैं। उनकी यह यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण रही है और उन्हें इस रास्ते में अनेक अड़चनों का सामना करना पड़ा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दुनिया भर में महिलाओं के समक्ष आने वाले सबसे प्रासंगिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए जी-20 और अतिथि देशों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों और वक्ताओं के अलावा महिला पथ प्रदर्शकों, उद्यमियों, नवोन्मेषियों, वैज्ञानिकों, जमीनी स्तर की महिला नेताओं तथा फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी, शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों, रक्षा प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों को एक मंच पर लाया। मंत्रालय द्वारा निर्धारित चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनमें शिक्षा: महिला सशक्तिकरण के प्रति आमूल-चूल बदलाव लाने वाला मार्ग, महिला उद्यमिता: इक्विटी और अर्थव्यवस्था के लिए लाभपूर्ण स्थिति, जमीनी स्तर सहित सभी स्तरों पर महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए साझेदारियां करना तथा जलवायु अनुकूलन कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में महिलाएं और लड़कियां-शामिल हैं।



सोसाइटी और हितधारकों के अथक प्रयासों और अदृष्ट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दुनिया भर में महिलाओं के समक्ष आने वाले सबसे प्रासंगिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए जी-20 और अतिथि देशों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों और वक्ताओं के अलावा महिला पथ प्रदर्शकों, उद्यमियों, नवोन्मेषियों, वैज्ञानिकों, जमीनी स्तर की महिला नेताओं तथा फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी, शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों, रक्षा प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों को एक मंच पर लाया। मंत्रालय द्वारा निर्धारित चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनमें शिक्षा: महिला सशक्तिकरण के प्रति आमूल-चूल बदलाव लाने वाला मार्ग, महिला उद्यमिता: इक्विटी और अर्थव्यवस्था के लिए लाभपूर्ण स्थिति, जमीनी स्तर सहित सभी स्तरों पर महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए साझेदारियां करना तथा जलवायु अनुकूलन कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में महिलाएं और लड़कियां-शामिल हैं। इन सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में महिला

सशक्तिकरण के लिए डिजिटल कौशल एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। इन क्षेत्रों पर जी-20 एम्पावर पहल और डब्ल्यू-20 सहभागिता समूह द्वारा चर्चा और विचार-विमर्श किया गया। इन बैठकों के मुख्य निष्कर्षों में महिला-पुरुष समानता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धताओं को प्रतिबिंबित किया, जिन्हें महिला सशक्तिकरण पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के वक्तव्य में अंगीकार किया गया और अंततः उसे जी-20 नेताओं के घोषणापत्र में पुख्ता स्थान दिया गया। यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ सर्वसम्मति कायम करना और बातचीत करना कठिन कार्य रहा। विकासशील देशों की दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दे प्रायः विकसित देशों के साथ समान रूप से प्रतिध्वनित नहीं होते। प्रतिनिधियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि जी-20 विमर्श में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और उद्यमिता के निष्कर्षों को जमीनी स्तर की महिला सामुदायिक नेताओं को शामिल किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। 'सर्वोत्तम कार्यप्रणाली प्लेबुक' ( या वेस्ट प्रैक्टिसज प्लेबुक) की विरासत में 'स्थानीय स्तर पर महिला उद्यमियों और

नेताओं का समर्थन' नामक एक नया फोकस क्षेत्र जोड़कर इसे समर्थन दिया गया। इन सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लिए डिजिटल कौशल एक महत्वपूर्ण विषय रहा। डिजिटल जेंडर डिवाइड को पाटने की प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता ने 2 से 4 अगस्त, 2023 तक आयोजित एमसीडब्ल्यूई के दौरान महिलाओं के डिजिटल कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभूतपूर्व 'टेक इक्विटी' प्लेटफॉर्म के शुभारंभ में योगदान दिया। इसके अलावा, इसकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल कौशल मंच की पहचान का विस्तार करने के वास्ते एमसीडब्ल्यूई में जी-20 देशों के साथ साझेदारियां स्थापित की गईं। यह प्लेटफॉर्म 120 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है और जी-20 देशों की लड़कियां और महिलाएं अपने करियर में उन्नति के क्रम में तेजी लाने के लिए डिजिटल स्किलिंग और अपस्किलिंग पाठ्यक्रमों में अब अपना पंजीकरण करा सकती हैं। एक अन्य ठोस परिणाम मेट्रिक्स प्लेटफॉर्म रहा। इसे एक वैश्विक नखलिस्तान माना जा सकता है, जहां जी-20 देशों की महिला परामर्शदाता अपने अनुभवों और विशेषज्ञता को प्रशिक्षुओं के साथ

साझा करती हैं, ताकि समस्त महिलाओं के सशक्तिकरण के सामूहिक विजन को साकार किया जा सके। प्रेरक कहानियां वास्तविक जीवन के उदाहरणों के जरिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हुए शक्तिशाली रोल मॉडल का काम करती हैं। पहली बार, भारत की अध्यक्षता में जी-20 एम्पावर वेबसाइट 9 देशों की 73 प्रेरक कहानियों के लिए एक ऐसा मंच बन गई, जिसने जी-20 देशों में कामयाबी का परचम लहराने वाली महिलाओं की शानदार यात्राओं को वृत्तचित्रित किया। भारत की जी-20 की अध्यक्षता ने स्वीकार किया कि नीतियों और रणनीतियों को सही मायने में प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उनसे जुड़ी चर्चाओं में नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण है, जिसके चलते जी-20 विमर्श में 'जनभागीदारी' की भावना को सम्मिश्रित किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पहल और सहभागिता समूहों के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को रेखांकित करने वाले वाक्यांश से लेकर प्लैश मॉब तक के आयोजनों के माध्यम से 300,000 से अधिक नागरिकों को सफलतापूर्वक साथ जोड़ा। मंत्रालय ने स्थानीय महिला कारीगरों, शिल्पकारों और महिला उद्यमियों को अपने उत्पाद और कौशल प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रदर्शियों का आयोजन किया, जिससे भारत की जी-20 की अध्यक्षता वास्तव में जनता का कार्यक्रम बन गई। जी-20 नेताओं का 2023 का नई दिल्ली घोषणापत्र केवल आशा की किरण भर ही नहीं है, बल्कि कार्रवाई का आह्वान भी है।

लेखक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव हैं।

# बिखरी जीवनशैली कर रही है स्मरण शक्ति पर प्रहार?

अल्जाइमर को हल्के में लेने की भूल कहीं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी के चलते न्यूरोजेनेरेटिव यानी भूलने की बीमारी का आरंभ होता है। चिकित्सीय रिपोर्ट्स की माने तो मौजूदा समय में प्रत्येक दसवां इंसान अल्जाइमर से किसी न किसी रूप में ग्रस्त है जिसका मुख्य कारण, इंसानों की अस्त-व्यस्त जीवनशैली, भागदौड़ व चुनौतियों से जूझती लाइफ, साथ ही खुद के लिए वक्त न निकालना और खानपान की बुरी आदतें आदि के चलते ही इंसानों की स्मरण शक्तियां और दिमागी क्षमता उम्र से पहले जवाब देने लगी है। गुजरे दो दशकों के भीतर अल्जाइमर ने भारत में अन्य बीमारियों के मुकाबले तेजी से पांव पसारते हैं। यह बीमारी किन्तनी खतरनाक है, इसलिए ही अल्जाइमर की रोकथाम और निदान के संबंध में आम जनों को जागरूकता करने के महसूस से सालाना सितंबर की 21 तारीख को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाते हैं।



अल्जाइमर मनोप्रश्न दुश्मन है। स्मृति हानि और अन्य संज्ञानात्मक क्षमताओं के लिए एक सामान्य शब्द जो दैनिक जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए गंभीर होता है उसे जन-जन तक पहुंचाने का काम आज का खास दिन करता है। ऐसा नहीं है कि अल्जाइमर रोग से भारतीय ही पीड़ित हैं, बिल्कुल नहीं? बल्कि इससे समूचा संसार

ग्रस्त है। वैसे, भूलने की बीमारी के कारण और भी बहुतेरे हैं। जैसे, महंगाई, कर्ज या अन्य घरेलू समस्याओं में जब इंसान फंसाता है तो चिंता के समंदर में गोते लगाने लगता है। उस स्थिति में इंसान की मस्तिष्क कोशिकाएं कमजोर पड़ने लगती हैं। चिकित्सकों की माने तो प्रत्येक इंसान के दिमाग के भीतर एक हिस्सा ऐसा होता है जो

सोचने, समझने व याद करने की प्रक्रिया को दुरुस्त करता है, अल्जाइमर इसी भाग पर सबसे पहले प्रहार करता है। समय रहते अगर इंसान रोकथाम या चिकित्सीय सलाह नहीं लेता, तो उसे अल्जाइमर अपने जाल में फंसा लेता है। ऐसी गलती कहीं न करें, उसी की सीख देने के लिए आज का दिन मुकर्रर हुआ है।

विश्व अल्जाइमर दिवस को गंभीरता लेने की जरूरत है, क्योंकि मामला सेहत से जुड़ा है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 55-60 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों में डिमेंशिया का प्रसार 7.4 फीसदी तक है, जिसका मतलब है कि तबकीब 8.8 मिलियन भारतीय वर्तमान में डिमेंशिया के साथ जी रहे हैं। जबकि, डिमेंशिया 2020 रिपोर्ट के 5.3 मिलियन से अनुमान से भी कहीं अधिक बताई गई है। इस रोग के सात चरण होते हैं। सातवां स्टेज अल्जाइमर का अंतिम चरण बताया गया है, क्योंकि ये एक लाइलाज बीमारी है। सातवां स्टेज में रोगी की मृत्यु होना निश्चित होता है। अंतिम चरण तक पहुंचते-पहुंचते रोगी संवाद करने की क्षमता पूरी तरह खो चुका होता है। अल्जाइमर से बचने के लिए डब्ल्यूएचओ, भारतीय शोधकर्ताओं व नामी चिकित्सकों ने कुछ बचाव और सुझाव दिए हैं, उन्हें अपना कर भी इस जानलेवा बीमारी से काफी हद तक बचा जा सकता है। आवश्यक बातें कुछ इस तरह हैं कि धूम्रपान व अल्कोहल के सेवन से सभी को बचना चाहिए। समय का उचित प्रबंधन करें, कार्यक्षमता अधिक बढ़ने पर तनाव मुक्ति वाले योगासन करें, दिमाग दुरुस्त करने वाले खेल खेलें, जैसे चेस व सुडोकू। खुशनुमा माहौल बनाएं अपने आसपास, दोस्तों संग मस्ती वाले क्षण उत्पन्न करें, पसंद की मूवी देखें, मनपसंद जगहों पर सैर-सपाटा जरूर कर रहे और यार-दोस्तों संग मासिक संगोष्ठियों को करना बिल्कुल भी न भूलें। दरअसल, ये ऐसे इंसानी जीवन के क्रियाकलाप हैं जो न सिर्फ अल्जाइमर से बचाते हैं, बल्कि डिप्रेशन, शुगर व मौसमी बीमारियों से भी दूर रखते हैं। चिकित्सीय इतिहास में इस रोग की अभी तक कोई मुकम्मल दवा ईजाद नहीं हुई। हालांकि, अमेरिकी खाद्य व औषधि प्रशासन ने एक दवा को मंजूरी दी है जिसका नाम अदुर्हैम है।

## Social Media Corner

सब के हक में...

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ नए सदन की शानदार शुरुआत हुई है। इससे महिलाओं के नेतृत्व में विकास को अभूतपूर्व गति मिलने वाली है। इसे जिस प्रकार से सभी राजनीतिक दलों का ऐतिहासिक समर्थन मिला है, वह विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगा। मैं सभी सांसदों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

(प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के टिवटर अकाउंट से)

हस्तशिल्प पर आधारित उत्पादों के साथ-साथ राज्य के युवा उद्यमियों, विशेषकर महिला उद्यमियों द्वारा भी अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। यह अच्छी बात है कि उद्यमशीलता और श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। लेकिन इसे और अधिक बढ़ाने की जरूरत है।

(राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के टिवटर अकाउंट से)

## महिला आरक्षण पर मचेगी श्रेय लेने की होड़

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हर काम का अपना ढंग है। लोकसभा और राज्यसभा में 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 पेश किया जा चुका है। जो लोकसभा से पास भी हो गया है। मोदी ने इसे नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया है। इस विधेयक के पारित होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ यह कानून लोकसभा और देशभर की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान सुनिश्चित कराएगा। खास बात यह है कि कुछ क्षेत्रीय दलों के ना-नुकर के मुकाबले इस विधेयक को सरतारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, दोनों का ही समर्थन हासिल है। इसके कि विधेयक के कानून बनने में कोई अड़चन नहीं है। मुद्दा यह है मोदी सरकार ने यह राजनीतिक कदम लोकसभा, 2024 के चुनाव के ठीक पहले क्यों उठाया? कांग्रेस भी सरकार का इतनी सहजता से समर्थन क्यों कर रही है? क्या इस बिल के कानून बनने के बाद

2024 के चुनाव से ही 33 फीसद महिला सांसद चुनी जायेंगी? इन सवालियों के जवाब देवने के लिए थोड़ा पीछे घूमकर देखना होगा। सबसे पहले 1996 में एचडी देवेगौड़ा सरकार के दौरान महिला आरक्षण बिल संसद में रखा गया लेकिन पास नहीं हो सका। साल 1997 में इंद्र कुमार गुजराल सरकार ने भी इस तरह की कोशिश की। वाजपेयी सरकार के दौरान 1998 में भी बिल प्रस्तुत किया गया परन्तु परिणाम ढाक के तीन पात वाला ही रहा। दूसरी बार सरकार बनने पर वाजपेयी ने 1999 फिर 2002 और 2003-04 में भी इसपर अमलीजामा की कोशिश की। हर बार सरकार में शामिल दलों में मतभेद इसके बाधक बना। वर्ष 2010 में मनमोहन सिंह सरकार का एक साल बीत चुका था। सरकार इस विधेयक को फिर से लेकर आई। यूपीए में शामिल मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल इसके विरोधी थे। बाद

में इन दलों ने कहा कि वे इसके विरोधी नहीं, बल्कि बिल की कुछ व्यवस्थाओं के खिलाफ हैं। वे चाहते थे कि राजनीतिक दल अपने टिकट बंटवारे में ही महिलाओं को 20 प्रतिशत का आरक्षण दें। तब लोकसभा में बिल फिर अटक गया। राज्यसभा में कांग्रेस का बहुमत था, 9 मार्च, 2010 को बिल पास हो गया। लोकसभा का कार्यकाल खत्म होता रहा अथवा सदन भंग होता रहा। नियमानुसार सदन के सत्र के साथ विधेयकों की वैधता भी खत्म हो जाया करती है। राज्यसभा स्थायी सदन है। इसलिए वहां से यह बिल पारित माना गया है। अब सिर्फ लोकसभा की स्वीकृति चाहिए। वहीं पहले दोनों सवाल के जवाब मिल जाते हैं। हर सरकार महिला आरक्षण की बात करती आयी है। भले मन में कुछ भी हो, राजनीतिक लाभ लेने की मंशा छिपी नहीं रह सकती। दूसरे प्रश्न का जवाब भी इस बात में है कि जो कांग्रेस राज्यसभा में इसे पारित करा चुकी है, वह अब पीछे

क्यों हटेगी। रही बात 2024 से ही इसके लागू होने की, इसका उत्तर कुछ स्थितियां स्पष्ट करने के बाद मिलेगा। विपक्ष कह रहा है कि महिला आरक्षण 2029 लोकसभा चुनाव से पहले संभव नहीं है। यह सच भी है। असल में इस विधेयक पर अमलीजामा की लंबी संवैधानिक प्रक्रिया है। सरकार ने स्वयं कहा है कि इसे लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद लागू किया जायेगा। अभी सीटें 2011 की जनगणना के आधार पर हैं। कोरोना के चलते 2021 में यह नहीं हो सकी थी। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी सहित कई पार्टियां जाति आधारित गणना की मांग कर रही है। सरकार इस पर चुप है। बहरहाल, उसका अधिकार है कि जैसे चाहे करए। जनगणना के बाद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के साथ ही महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का सुझाव देगा।

## कनाडा से निराशा

भारत और कनाडा के बीच पैदा ताजा तनाव का असर विभिन्न मंचों पर दिखने लगा है और यह दोनों ही लोकतांत्रिक देशों के लिए दुखद और अफसोसजनक है। कनाडा शुरू से ही भारतीयों का एक प्रिय ठिकाना रहा है, पर अगर वह अब आतंकियों या अलगाववादियों का ठिकाना बना चाहता है, तो वह अपने लिए हास्यास्पद स्थिति का पैदा करेगा। कनाडा की वर्तमान सरकार ने जिस तरह से नासमझी में जलदबाजी दिखाई है, उसकी निंदा स्वयं कनाडा ही संजीवनी विधान व नेता कर रहे हैं। भारतवंशी कनाडाई नेता उज्ज्वल दोसांज को सब जानते हैं, वह भी पंजाबी हैं, उन्होंने तो यहां तक सलाह दे डाली है कि अगर कनाडा सरकार को इतनी ही परवाह है, तो वह अपने यहां ही एक खलिस्तान बना दे। सिर्फ सियासी मजबूरी को वजह से मौजूदा कनाडा सरकार अगर भारत विरोधियों की पक्षधर बन गई है, तो यकीन मानिए, उसने अपने ही देश को मुश्किल में डाल दिया है। कनाडा निवासी नामजद आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में किसी भारतीय एजेंसी की सलिपता है, तो कनाडा को इसके ठोस प्रमाण पेश करने चाहिए। एक वांछित आतंकी के प्रति कनाडा सरकार का लगाव बेहद निंदनीय है। यह भारत की संप्रभुता पर सीधे हमला है। भारत को तोड़ने का इरादा रखने वालों के प्रति किसी देश को भला क्यों हमदर्दी होनी चाहिए? ऐसे में, कनाडा के प्रति भारत की शुकुआती आक्रामकता आवश्यक व उचित है। कनाडा को कूटनीतिक स्तर पर जैसे को तैसा स्वरूप में करारा जवाब मिलना ही चाहिए। कनाडा में 2,30,000 भारतीय छात्र और 7,00,000 अनिवासी भारतीय रहते हैं। इतने लोगों को किसी भी तरह की परेशानी से बचना भारत सरकार की इच्छा है। भारत सरकार ने उचित ही अपने लोगों की सुरक्षा के लिए एअरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं, और आगे भी स्थितियों पर चौकस निगाह रखनी चाहिए।

## सेफ्टी के मामले में टाटा पंच इंडियन कारों का बाप

-10 साल बाद भी नहीं होगा कोई मलाल!

नई दिल्ली।

सेफ्टी के मामले में टाटा पंच इंडियन कारों का बाप है। इसे 5 स्टार एनकेप रेटिंग मिला हुआ है। देश में टाटा ने पंच के जरिए एंटी लेवल कारों का पूरा गणित बदल दिया है। पंच टाटा की एक सबसे सफल कार है। टाटा पंच की यह एक शानदार एंटी लेवल एसयूवी है। इसमें 1200 सीसी का तीन सिलेंडर इंजन है, जबकि ऑल्टो में 1000 सीसी का तीन सिलेंडर इंजन है। पंच के अलावा टाटा की नेक्सॉन उसकी दूसरी सबसे सफल कार है। साइज, इंजन, पावर, सेफ्टी, परफॉर्मेंस और फीचर्स यानी हर मामले में ऑल्टो से कहीं आगे की तकनीक से लैस पंच इस वक बाजार की सबसे लोकप्रिय गाड़ियों में शुमार है। इन सभी मामलों में उसकी ऑल्टो के 10 से कोई तुलना नहीं है। फिर आप सोच रहे होंगे कि

ऑल्टो की तुलना में पंच काफी महंगी होगी। लेकिन, ऐसा नहीं है।

आपको ऑल्टो के टॉप मॉडल में जो चीजें मिलती हैं करीब-करीब वो सभी चीजें पंच के बेस मॉडल में हैं। इस वक ऑल्टो के 10 का सबसे टॉप यानी वीएक्सआई प्लस एटी मॉडल की एक्स शो रूम कीमत 5.90 लाख रुपये है। वहीं टाटा पंच के बेस मॉडल प्यूर की एक्स शो रूम कीमत 6 लाख रुपये से शुरू होती है। सेफ्टी के मामले में टाटा पंच एक सबसे बेहतरीन कार है। इसके बेस मॉडल में दो एयरबैग्स हैं। इसके अलावा इसकी बॉडी की मजबूती से दुनिया अलग है। वहीं ऑल्टो के 10 के टॉप मॉडल में भी दो एयरबैग्स हैं। दोनों कारों में पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग सहित सभी बेसिक चीजें हैं। कई अन्य मामलों में पंच का बेस मॉडल



ऑल्टो के 10 के टॉप मॉडल पर भारी पड़ता है। वहीं ऑल्टो के टॉप मॉडल में आपको इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जबकि पंच के बेस मॉडल में म्यूजिक सिस्टम नहीं है।

## बायजू के भारतीय परिचालन के सीईओ मृगाल मोहित ने इस्तीफा दिया

नई दिल्ली:

शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू के संस्थापक भागीदार और भारतीय परिचालन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मृगाल मोहित ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने बुधवार को एक बयान में यह जानकारी दी। बायजू के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मामलों के सीईओ अर्जुन मोहन भारतीय परिचालन को अतिरिक्त जिम्मेदारी सभालेंगे। बयान के अनुसार, "अर्जुन मोहन भारतीय परिचालन

के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। वह बायजू के संस्थापक भागीदार और भारतीय कारोबार के निवर्तमान प्रमुख मृगाल मोहित का स्थान लेंगे। मोहित व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये एक नई शुरुआत कर रहे हैं। मोहन बायजू की संस्थापक टीम का हिस्सा थे और अपने पिछले कार्यकाल में मुख्य व्यवसाय अधिकारी थे। वह जुलाई में कंपनी में दोबारा शामिल हुए थे। बायजू के संस्थापक और समूह सीईओ बायजू रवीन्द्र ने कहा, "यदि बायजू आज

उल्लेखनीय ऊंचाई तक पहुंची है, तो यह हमारी संस्थापक टीम के असाधारण प्रयासों का नतीजा है। मृगाल के योगदान पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा, "हमने साथ मिलकर जो हासिल किया है, उस पर मुझे गर्व है। रवीन्द्र ने कहा, "अर्जुन की वापसी हमारे मिशन और आगे आने वाले अवसरों में उनके भरोसे

का प्रमाण है। उनकी विशेषज्ञता निश्चित रूप से हमारे बदलाव के प्रयासों में मदद करेगी और वैश्विक परिदृश्य में हमारी स्थिति को मजबूत करेगी।



## पेमेंट का सिंगल प्लेटफॉर्म बनेगा वॉट्सऐप

नई दिल्ली।

ग्राहकों के लिए डिजिटल भुगतान दिन प्रतिदिन आसान होता जा रहा है। पहले क्रेडिट कार्ड के जरिये यूपीआई पेमेंट की सुविधा मिली, अब मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप ने अपने प्लेटफॉर्म के जरिये भुगतान का दायरा बढ़ा दिया है। ग्राहक के पास पेटीएम-फोनपे जैसे ऐप नहीं हैं और क्रेडिट या डेबिट कार्ड भी साथ नहीं लाए, तो भी इस मैसेजिंग ऐप के जरिये भुगतान कर सकेंगे। वॉट्सऐप की पैरेंट कंपनी मेटा ने ऐलान किया कि अपने यूजर्स के लिए पेमेंट की

सर्विस और आसान बनाया जा रहा है। इसके लिए पेयू और रोजरपे जैसे ग्लोबल पेमेंट कंपनियों से हाथ मिलाया है। अब वॉट्सऐप के जरिये यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या सभी तरह के यूपीआई ऐप का भी इसे तेमाल कर सकेंगे। इस तैयारी के साथ कंपनी ने फोनपे और पेटीएम जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म की चुनौतियां और बढ़ा दी हैं। वॉट्सऐप ने इससे पहले स्टाइप ने साथ करार करके दो देशों में कारोबार को भुगतान करने के लिए इस तरह की सुविधा शुरू कर दी है। सिंगापुर और बाजील में

वॉट्सऐप प्लेटफॉर्म के जरिये यूजर्स यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग का इसे तेमाल शुरू कर चुके हैं। मुंबई में एक वचुअल इवेंट में मेटा के फाउंडर और सीईओ जूकरबर्ग ने कहा था कि भारतीय यूजर्स के लिए वॉट्सऐप के जरिये भुगतान की सुविधा और आसान बनाया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर उन्हे मनचाहे मोड से पेमेंट की सुविधा मिलेगी। वॉट्सऐप ने एक नया फीचर फ्लोज लांच किया। इस फीचर के जरिये चैटबॉट से मेटा ग्राहक को अकाउंट खोलने, खानी डिलीवरी

करने के लिए मैयू और ऑर्ड की सुविधा, एयरलाइंस में चेक इन और सीट ऑप्शन चुनने जैसे सुविधाएं मिल सकेंगी।

## सरकार की एसजेवीएन में हिस्सेदारी के लिए बिक्री पेशकश शुरू

नई दिल्ली। सार्वजनिक

क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड में सरकार की 4.92 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री पेशकश (ओएफएस) संस्थागत निवेशकों द्वारा बोली लगाने के साथ शुरू हुई। सरकार दो दिवसीय बिक्री पेशकश (ओएफएस) में 69 रुपए प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर 4.92 प्रतिशत हिस्सेदारी (19.33 करोड़ शेयर) बेच रही है। इस न्यूनतम मूल्य पर 4.92 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री पेशकश से सरकारी कोष को 1,300 करोड़ रुपए से अधिक मिल सकते हैं। सरकार की वर्तमान में एसजेवीएन में 86.77 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस बीच शुरूआती कारोबार में एसजेवीएन के शेयर पिछले बंद भाव से 9.38 प्रतिशत गिरकर 74.08 रुपए पर पहुंच गए।

## निवेशकों ने बॉन्ड म्यूचुअल फंड से अगस्त में 25,872 करोड़ रुपए निकाले

नई दिल्ली: बॉन्ड प्रतिभूतियों में निवेश करने वाली म्यूचुअल फंड (डेट म्यूचुअल फंड) योजनाओं से पिछले महीने 25,872 करोड़ रुपए की निकासी हुई है। निवेशकों के सतर्क रुख और अमेरिका में मौजूदा ब्याज दर परिदृश्य के चलते ऐसा हुआ। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फ़ी) के आंकड़ों के मुताबिक, समीक्षाधीन महीने के दौरान 16 बॉन्ड श्रेणियों में से नौ में शुद्ध निकासी हुई। शुद्ध निकासी की बड़ी मात्रा एक साल से कम अवधि वाली श्रेणियों जैसे- नकदी, अति लघु और कम अवधि में देखी गई। इसके अलावा बैंकिंग और पीएसयू श्रेणी में भी महत्वपूर्ण निकासी हुई। आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त में बॉन्ड म्यूचुअल फंड से 25,872 करोड़ रुपए की निकासी हुई, जबकि इससे पिछले महीने इसमें 61,440 करोड़ रुपए डाले गए थे। मॉर्निंगस्टार इंडिया के विश्लेषक-प्रबंधक शोध मैल्विन सैंटरिता ने कहा, "मौजूदा ब्याज दर परिदृश्य और देश में ब्याज दरों की दिशा को लेकर अनिश्चितता के बीच ऐसा लगता है कि कई निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया है। निवेशक ब्याज दरों पर आगे के संकेत का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे परिदृश्य में निवेशक बॉन्ड से शेयर की ओर रुख भी कर सकते हैं।"



## कम ब्याज दरों से घटी बचत, लोगों ने संपत्तियों में किया निवेश: एसबीआई रिसर्च

- भारत में लोगों की घरेलू बचत में गिरावट आई, यह 50 साल में सबसे निचले स्तर पर

नई दिल्ली।

एसबीआई की ताजा रिसर्च में इन रिपोर्ट्स को भ्रामक बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू बचत की जगह अब लोग अपने पैसों को विभिन्न संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं।

कोरोना महामारी के दौरान रिजर्व बैंक ने रेपो दर स्थिर रखी थी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया था। जिसके चलते लोगों ने घरेलू बचत करने की बजाय संपत्तियों में निवेश किया है। एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट

में यह दावा किया गया है। रिसर्च के अनुसार बीते दो सालों में रिटेल क्रेडिट का 55 फीसदी हिस्सा घर खरीदने, उच्च शिक्षा और वाहनों की खरीद में इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि रिजर्व बैंक डाटा ऑन हाउसहोल्ड एसेट एंड लायबिलिटीज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में लोगों की घरेलू बचत में गिरावट आई है और यह 50 साल में सबसे निचले स्तर पर है।

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि घरेलू बचत वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल जीडीपी की

सिर्फ 5.1 प्रतिशत रह गई है जबकि 2020-21 में यह 11.5 प्रतिशत थी और कोरोना महामारी से पहले यह 7.6 प्रतिशत थी। अब एसबीआई की ताजा रिसर्च में इन रिपोर्ट्स को पूरी तरह से भ्रामक बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू बचत की जगह अब लोग अपने पैसों को विभिन्न संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं। एसबीआई की रिसर्च के अनुसार हाइब्रिड लोस और फ्लू बचत का भौतिक संपत्तियों में निवेश का सीधा संबंध है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में घरेलू बचत में

भौतिक संपत्तियों में निवेश दो तिहाई से ज्यादा था, लेकिन 2021-22 में यह गिरकर 48 प्रतिशत रह गया था। अब इसमें फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है और वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर 70 प्रतिशत हो गया है और इसी के चलते वित्तीय संपत्ति में कमी आई है। एसबीआई की इस रिसर्च रिपोर्ट में यह भी अनुमान बताया गया है कि रियल एस्टेट सेक्टर में उछाल और संपत्तियों की कीमत बढ़ने के चलते भी यह बदलाव हुआ है।

## अडानी की हरित ऊर्जा परियोजनाओं में 30 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी फ्रांस की टोटल

नई दिल्ली:

फ्रांस की टोटल एनर्जीज एम्स अडानी ग्रुप के साथ नवीकरणीय ऊर्जा योजना के लिए एक नए चे वाइठ वेंचर में 30 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी। भारतीय ग्रुप ने बुधवार को शेयर बाजारों को इस बारे में जानकारी दी। अडानी ग्रुप की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लि. (AGIL) ने कहा, "टोटल सीधे खुद या अपनी सहयोगी इकाइयों के जरिए एजीईएल के साथ 50:50 अनुपात वाली संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए 30 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी।"

पोर्टफोलियो में सौर और पवन ऊर्जा दोनों शामिल नई संयुक्त उद्यम कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी ट्वंटी थ्री लि. (AGIL23R) के पास 1,050 मेगावाट (MWAC) है। इसमें पहले से परिचालन में आ चुका 300 मेगावाट शामिल है। इसके अलावा 50 मेगावाट निर्माण के चरण में है। 250 मेगावाट विकास के चरण में है। पोर्टफोलियो में सौर और पवन ऊर्जा दोनों शामिल हैं। इस साल की शुरुआत में आई हॉलंडबर्ग की रॉपोर्ट के बाद यह अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश की बड़ी डील है।



हिंडनबर्ग के आरोप के बाद शेयर बाजार में गिरावट

आपको बता दें हिंडनबर्ग की तरफ से अडानी ग्रुप पर आरोप लगाया गया था कि उसने लिस्टेड कंपनियों के स्टॉक में हेरफेर किया है। इसके बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में बड़ी गिरावट देखी गई थी। इसका असर यह हुआ कि शेयर 52 हफ्ते के नीचे चले लेवल पर पहुंच गए। हालांकि इन सभी आरोपों से अडानी ग्रुप ने इनकार किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामले की जांच के लिए छह सदस्यीय समिति गठित की गई थी। इस समिति ने जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की तरफ से लगाए गए आरोपों से क्लीन चिट दे दी है।

## दीपक एडवर्टाइजिंग के नाम एक और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड

इंदौर।

अपनी इनोवेटिव कार्यशैली के फलस्वरूप दीपक एडवर्टाइजिंग ने इस वर्ष भी स्वयं को श्रेष्ठ साबित किया है। यूएसए के विश्वस्तरीय संगठन द्वारा मार्केटिंग एवं विज्ञापन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिए जाने वाले समिट इंटरनेशनल अवार्ड्स में दीपक एडवर्टाइजिंग ने दोबारा गोल्ड अवार्ड हासिल किया है। सिंधिया कन्या विद्यालय, ग्वालियर के प्रोजेक्ट संकल्प के लिए डिजाइन किये गए ओरिगेमी आर्ट (पेपर फोल्डिंग आर्ट) पर आधारित क्रिएटिव बोशर के लिए नॉन प्रॉफिट कैटेगरी में दीपक एडवर्टाइजिंग को समिट इंटरनेशनल गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। समाज में माहवारी (पीरियड्स) से जुड़ी भांतियों को दूर करने और महिलाओं एवं युवतियों को पीरियड शैमिंग से सुरक्षित रखने के लिए सिंधिया कन्या विद्यालय द्वारा प्रोजेक्ट संकल्प की शुरुआत की गयी। साथ ही महिलाओं को इसके प्रति अधिक जागरूक बनाने और उनके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए भी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अलग अलग स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अलावा विद्यालय मैनेजमेंट और छात्रों द्वारा न्यूनतम लागत पर सेनेटी पेड का निर्माण कर उन्हें



## यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें स्थिर रखीं

वाशिंगटन। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को समान रखने का फैसला किया, लेकिन वे अब अधिक सतर्क हो रहे हैं और इस साल के अंत में दरें बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। उनका इरादा 2024 तक मौद्रिक नीति पर कड़ा नियंत्रण रखने का भी है, जो इससे पहले लगाई जा रही उम्मीद से अलग है। जून की तरह फेडरल रिजर्व के नीति निर्माताओं का अब भी मानना है कि प्रमुख ब्याज दर इस साल अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएगी और यह 5.50 और 5.75 फीसदी के बीच होगी, जो अभी जहां है उससे थोड़ा सा अधिक है। फेडरल रिजर्व ने अपने अनुमानों को अपडेट किया है और अब उन्हें उम्मीद है कि 2024 में ब्याज दरों में केवल आधा प्रतिशत अंक की कमी होगी, जो कि जून में उनके अनुमान से कम है जब उन्हें पूर्ण प्रतिशत अंक की कमी की उम्मीद थी। 2024 के अंत तक प्रमुख ब्याज दर 5.1 फीसदी होने की उम्मीद है और 2025 के अंत तक, यह 3.9 फीसदी होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त फेड को उम्मीद है कि मुद्रास्फीति इस साल के अंत तक 3.3 फीसदी, अगले साल 2.5 फीसदी और 2025 के अंत तक 2.2 फीसदी होगी। फेडरल ओपन मार्केट कमिटी ने नोट किया है कि मुद्रास्फीति अभी भी काफी अधिक है। उन्होंने यह बयान तब दिया जब उन्होंने अपने अनुमानों को अपडेट किया, जो अब मजबूत आर्थिक विकास और पहले की अपेक्षा अधिक रोजगार के अवसरों का संकेत देते हैं। वे अर्थव्यवस्था के लिए सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने के अपने लक्ष्य को भी ध्यान में रख रहे हैं।

## वाट्सअप ने मिलाया रेजरपे और पे यु से मिलाया हाथ, भारत में शुरू करने जा रहा क्रेडिट कार्ड पेमेंट की सर्विस

वाट्सअप ने बुधवार को कहा कि वह भारत में अपने ऐप के जरिए क्रेडिट कार्ड पेमेंट की सर्विस देगा। वॉट्सऐप डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर्स से क्रेडिट कार्ड पेमेंट की सर्विस मुहैया कराएगा। भारत में वॉट्सऐप के लिए 50 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। हालांकि रेगुलेटर्स ने इन-ऐप वॉट्सऐप से सर्विस को केवल 100 मिलियन लोगों तक सीमित कर दिया है। सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप ने बुधवार को यूजर्स के चैट एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए कई सारी नई सर्विस को शुरू करने का ऐलान किया है। वॉट्सऐप ने अपने यूजर्स को क्रेडिट-डेबिट कार्ड, यूपीआई और दूसरे जरियों से पेमेंट की सुविधा देने के लिए रेजरपे और पे यु से हाथ मिलाया है। इसके बाद सीधे चैट के जरिए शॉपिंग करना आसान हो जाएगा। एक ब्लॉग अपडेट में ऐसा बताया गया है कि बुधवार से भारत में वॉट्सऐप यूजर्स कार्ड में आइटम को ऐड कर सकते हैं और सभी यूपीआई ऐस, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं।

वाट्सअप ने पेश की फ्लो सर्विस पेमेंट के अलावा वॉट्सऐप ने अपने यूजर्स के लिए फ्लो की सर्विस भी पेश की है। जिसके जरिए ट्रेन की सीट चुनने, फूड ऑर्डर करने और चैट विंडो को छोड़े बिना ही अपॉइंटमेंट बुक करने की सर्विस मिल सकेगी। यह सर्विस आगले कुछ ही हफ्तों में शुरू हो जाएगी। इसके अलावा वॉट्सऐप ने अलग अलग बिजनेस के लिए मेटा वेरिफाइड को भी शुरू किया है।



## सैमसंग को 500 करोड़ का पीएलआई प्रोत्साहन मिलेगा

नई दिल्ली। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को 2020-21 में मोबाइल फोन के अतिरिक्त उत्पादन के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत 500 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन मिलेगा। कंपनी ने 900 करोड़ रुपए के पीएलआई प्रोत्साहन का दावा किया था। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2020 में घोषित पीएलआई योजना के तहत सैमसंग ने यह दावा किया था। नाम न छापने की शर्त पर सरकारी अधिकारी ने कहा कि मामला सुलझ गया है। कंपनी को करीब 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस बारे में कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम इस समय प्रोत्साहन भुगतान को लेकर भारत सरकार के साथ चर्चा के एक उन्नत चरण में हैं। सैमसंग 26 वर्षों से अधिक समय से भारत का एक प्रतिबद्ध भागीदार है। हम पीएलआई योजना को सफल बनाने के लिए विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।





## रक्त वाहिकाओं को मजबूत करने में मदद करते हैं नींबू के पत्ते

नींबू के पत्ते विटामिन सी से भरपूर होते हैं। नींबू के पौधे में पाया जाने वाला विटामिन पी आपके शरीर में रक्त वाहिकाओं को मजबूत करने में भी मदद करता है। साथ ही नींबू के पत्तों को एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रभाव के लिए भी जाना जाता है। ऐसे में नींबू की पत्तियों का सेवन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

और बढ़ने से रोकता है। ऐसे यदि आपको बार-बार किडनी में स्टोन हो जाता है तो यह आपके लिए यह किसी रामबाण से कम नहीं है।

### माइग्रेन के दर्द से मिलेगी राहत

एक अध्ययन के अनुसार, नींबू के पत्ते माइग्रेन से पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद होता है। दरअसल, नींबू की पत्तियों में एंटी-ऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है। माना जाता है कि एंटी-ऑक्सीडेंट प्रभाव शरीर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके माइग्रेन की समस्या को सुधारने का काम करता है। एक्सपर्ट माइग्रेन और मानसिक रोगों से राहत पाने के लिए नींबू के पत्तों को सुंघने की सलाह देते हैं।

## घर पर ही करें ये एक्सरसाइज

मोटापा ना सिर्फ वॉडी शेप बिगाड़ता है बल्कि कई बीमारियां को भी ज्योता देता है। मोटापे को कम करने और बॉडी को टोंड बनाने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इससे वजन तो कम होता ही है साथ में शरीर में लचीलापन और एनर्जी बढ़ती है। अगर आप जिम नहीं भी जा पाती तो घर पर ही कुछ एक्सरसाइज करें। चलिए आज हम आपको ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं जिन्हें आप घर पर आसानी से कर भी सकते हैं और इससे कैलोरी भी बर्न तेजी से बर्न होगी। वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज -

### स्क्वेट एक्सरसाइज

स्क्वेट की मदद से भी आप मोटापे को कम कर सकते हैं। सही तरीके से स्क्वेट करना काफी फायदेमंद होता है। शरीर के निचले भाग से वजन कम करने के लिए यह सबसे अच्छी एक्सरसाइज में से एक है। यह बॉडीबिल्डर और एथलीट के बीच काफी पॉपुलर है।

### हाई इंटेन्सिटी इंटरवल ट्रेनिंग

हाई इंटेन्सिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आप कम समय में ज्यादा वजन कम कर सकते हैं। इससे शरीर की फैट बर्न करने की क्षमता बढ़ जाती है। कई घंटों जिम में पसीना बहाने से अच्छा यह एक्सरसाइज 20 मिनट के लिए करना ज्यादा फायदेमंद है।

### जुंबा डांस एक्सरसाइज

अगर आप ज्यादा भार वाली एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो जुंबा डांस सबसे बेहतर है। यह आपकी पूरी बॉडी पर वर्क करती है। एंजॉय करने के साथ इससे आप वजन भी कम कर सकते हैं। यह तनाव कम करता है और शरीर में एनर्जी बढ़ाता है। हाई इंटेन्सिटी मूवमेंट की वजह से वजन जल्दी कम होता है।

### पावर योगा

पावर योगा काफी असरदार है। यह ट्रेडिशनल योगा के मुकाबले जल्दी वजन कम करने में मदद करता है। इसमें ज्यादा मुश्किल योगासन होते हैं जो जल्दी-जल्दी किए जाते हैं इसलिए यह बेस्ट है।

### साइकिलिंग

साइकिलिंग भी वजन कम करने का आसान और अच्छा ऑप्शन है। इससे आप काफी कैलोरी बर्न कर सकते हैं। रोजाना सुबह कम से कम लगातार आधा घंटा साइकिलिंग जरूर करें, आप पहले पहल 15 मिनट से शुरूआत कर सकते हैं।



नींबू के फायदे तो आपने बहुत सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी पत्तियां भी किसी औषधी से कम नहीं होती हैं। नींबू के पत्ते का उपयोग आप कई तरह की बीमारियों से बचाव के लिए और इसे कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। पर कई लोगों को ऐसा लगता है कि नींबू के पत्ते कड़वा होता है और किसी काम का नहीं होता। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इन पत्तों को खाने या इनके जूस ही इन्हें केवल सूंघ लेने से भी कई तरह के फायदे होते हैं।

### नींबू के पत्तों का सेवन कैसे करें?

नींबू सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है लेकिन इसे चबाकर खाने से बचना चाहिए। इसका सेवन आप चाय में मिलाकर, जूस के रूप में कर सकते हैं। नींबू के पत्तों में एंटीवायरल, एंटी ऑक्सीडेंट, एल्कलॉइड, टैनिन, फ्लेवोनॉइड और फेनॉलिक तत्व शामिल होते हैं। साथ ही इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जैसे पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें एंथेल्मिंटिक, एंटी-प्लेटलेट्स, एंटीमाइक्रोबियल, एंटी-कैंसर, एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रभाव भी पाया जाता है।

### किडनी में नहीं बनने देता स्टोन

एनसीबीआई में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, नींबू के पत्ते में पाया जाने वाला सिट्रिक एसिड किडनी में स्टोन को बनने

### सोने की समस्या को करता है खत्म

रिसर्च के अनुसार, यदि आपको रात में नींद नहीं आती है, अनिद्रा की समस्या का शिकार है, तो नींबू के पत्ते आपके लिए दवा का काम कर सकते हैं। इसमें मौजूद सिट्रिक एसिड और अल्कलॉइड नींद से जुड़ी समस्या को दूर करने का काम करता है। ऐसे में नींबू के पत्तियों से बनाए गए तेल आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

### वजन रहता है कंट्रोल

यदि आप बढ़ते वजन से परेशान हैं तो नींबू के पत्ते आपकी इस परेशानी को खत्म कर सकता है। माना जाता है कि नींबू के पत्ते से बने जूस में पेविटिन नामक घुलनशील फाइबर होता है, जो वजन घटाने में कारगर साबित हो सकता है। नींबू के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी को पीएं।

### पेट के कीड़ों को मारता है

मेडिकल रिसर्च के मुताबिक, नींबू की पत्तियों में एंथेल्मिंटिक गुण होता है तो पेट के कीड़ों से छुटकारा दिलाने का काम करता है। ऐसे में नींबू की पत्तियों का उपयोग पेट के कीड़ों को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। आप नींबू के पत्तों का रस और शहद को मिलाकर सेवन कर सकते हैं।



फिट और स्लिम रहने की चाह हर व्यक्ति की होती है, लेकिन आजकल का बिजी लाइफस्टाइल, खान-पान से जुड़ी बुरी आदतें और वर्कआउट की कमी के चलते यह सपना बहुत कम ही लोगों का पूरा हो पाता है। ऐसे में कई बार लोग अपने बढ़े हुए वजन से छुटकारा पाने के लिए खाना-पीना ही बंद कर देते हैं। जिसकी वजह से शरीर कमजोर होकर कई रोगों का घर बनने लग जाता है। अगर आपकी भी यही समस्या है तो कोरियन वेट लॉस डाइट आपकी मदद कर सकती है। दुनिया भर में लोग कोरियाई ब्यूटी टिप्स और उनके डाइट प्लान के दिवाने हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या होती है यह कोरियन 'के पॉप डाइट' और क्या हैं इसके फायदे।

### कोरियन डाइट प्लान के नियम

- कोरियन वेट लॉस डाइट प्लान में तय सीमा में कैलोरी लेने की सलाह नहीं दी जाती है। इस डाइट में व्यक्ति अपनी मर्जी से कैलोरी ले सकता है। इस डाइट प्लान में व्यंजनों, सूप और सब्जियों के ज्यादा से ज्यादा सेवन की सलाह दी जाती है।
- इस डाइट प्लान के साथ ज्यादा से ज्यादा योग और एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है।
- इस डाइट को फॉलो करने वाले लोग दिन में 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद भी जरूर लें।

## क्या है के-पॉप डाइट के फायदे

### के-पॉप डाइट के फायदे

- कोरियन डाइट में फाइबर की अधिकता होने से पेट भरा हुआ लगता है, जिससे व्यक्ति को बार-बार भूख नहीं लगती। कैलोरीज का सेवन कम करने की वजह से वजन कम करने में मदद मिलती है।
- हल्का खाने से आपको कब्ज या पेट दर्द जैसी समस्या नहीं होती। इसमें हल्का खाना होता है जिससे पेट को आराम मिलता है।
- इस डाइट में प्रोटीन ज्यादा लिया जाता है। जो बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। कोरियन डाइट लेने से आपके बालों को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं जिससे बाल लंबे और घने बनते हैं।
- इस डाइट में आप तली हुई चीजें, फास्ट फूड या तेल का इस्तेमाल नहीं करते जिसके चलते चेहरे पर मुँहासों की समस्या से निजात मिलता है।

## नींद की कमी से होता है थायरॉइड

अगर आप ये सोचती हैं कि आप अपने बारे में सब कुछ जानती हैं तो ऐसा नहीं है। शरीर और सेहत से जुड़ी ऐसी बहुत-सी बातें हैं, जो ज्यादातर महिलाओं को पता ही नहीं होती और आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे। इसे पढ़ने के बाद आपको अंदाजा होगा कि कितना कुछ था जो आप अपने बारे में नहीं जानती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं वो बातें, जिसे जानना हर महिला के लिए जरूरी है।

### कम नींद से थायरॉइड

यह तो सभी जानते हैं कि भरपूर नींद अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। मगर क्या आपको पता है कि 70% महिलाओं को थायरॉइड की समस्या नींद की कमी से होती है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपनी पूरी नींद लें।

### नाखूनों का बढ़ना

महिलाओं के नाखूनों की तुलना में पुरुषों के नाखून तेज गति से बढ़ते हैं। ऐसा हार्मोन के कारण होता है। साथ ही नाखून के बढ़ने की गति गर्मियों में अधिक तेज होती है क्योंकि उस दौरान शरीर को ज्यादा मात्रा में विटामिन डी मिलता है।

### धूप के कारण होती है झुर्रियां

महिलाएं अक्सर कम उम्र में झुर्रियां पड़ने को लेकर परेशान रहती हैं। मगर आप यह नहीं जानती कि 80% महिलाओं में झुर्रियां अत्यधिक धूप के कारण होती हैं। इसे दूर करने के लिए महिलाएं बोटॉक्स सर्जरी का सहारा लेती हैं लेकिन आप विटामिन सी का सेवन कर झुर्रियों को दूर कर सकती हैं।

### पीरियड्स का ज्यादा ब्लिडिंग है

डिसमिनोरिया का संकेत पीरियड्स के दौरान प्राइवेट पार्ट में दर्द हल्का दर्द होना सामान्य है। कई बार वेजाइना का यह दर्द बढ़ाकर करना मुश्किल हो जाता है। अगर हर बार इस तरह की तकलीफ हो रही है तो वह डिसमिनोरिया का संकेत हो सकता है। यह वुमेन हेल्थ कंडीशन है जो 7 में से 1 महिला को हो सकती है।

### महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा

होती है नींद की जरूरत महिलाएं मल्टीटार्किंग होती हैं, जिसकी वजह से वो घर व ऑफिस में मेंटल एनर्जी का पुरुषों से ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। अगर वो भरपूर नींद न लें तो खपत हुई ऊर्जा को दोबारा बनाए रखने में बहुत परेशानी होती है। धीरे-धीरे इसका असर उनकी सेहत पर भी पड़ता है इसलिए उन्हें पुरुषों से ज्यादा नींद की जरूरत होती है।

## लाल मिर्ची के इस्तेमाल से हार्ट अटैक पर पाया जा सकता है काबू



आजकल के ज्यादातर लोगों में सबसे गंभीर बीमारी हार्ट अटैक सामने आ रही है। अगर देखा जाए तो इस बीमारी की कोई उम्र सीमा नहीं है। यह बीमारी हमारे जीवनशैली यानी हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होती है।

तनाव इस बीमारी की मुख्य वजह है। इस बीमारी का शिकार लोगों का ईलाज में लाखों रुपए लग जाते हैं। वहीं इस बीमारी का ईलाज आप 60 सेकंड में घर में भी कर सकते हैं वो भी मिर्च से। जी हां, मिर्च ऐसी

चीज है अगर खाने में ना हो खाना ही बेववाद लगता है। और अगर यह खाने में ज्यादा हो जाए तो भी खाने वाले का बुरा हाल। अब बताते हैं कि लाल मिर्ची के इस्तेमाल से हार्ट अटैक पर केवल 60 सेकंड में काबू पाया जा सकता है। दरअसल एक मशहूर डॉक्टर जॉन क्रिस्टोफर का कहना है की, मैंने आज तक जितने भी हार्ट अटैक मरीजों के घर गया हूँ उनमें से कोई भी मरा नहीं है। मैं उन्हें लाल मिर्च की चाय पिलाता हूँ (एक कप गर्म पानी में एक चम्मच लाल मिर्च) और वह मिटों में अपने पैरो पर खड़े हो जाते हैं।

**मणिपुर : ग्रेनेड, मशीन गन और राइफल...थोबल में कई हथियार बरामद**



थोबल । असम राइफलस ने हिंसा प्रभावित मणिपुर के थोबल जिले में हाओखोंग की तलहटी से हथगोले और एक कारबाइन मशीन गन सहित जंगी सामान और अत्याधुनिक हथियार बरामद किए हैं। 19 सितंबर को एक 9 मिमी कारबाइन मशीन गन, एक सिंगल बैरल राइफल, तीन हथगोले और युद्ध सामग्री बरामद की गई। क्षेत्र में आतंकवादी भंडारों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सर्व ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के सहयोग से यह ऑपरेशन चलाया गया। यह तब हुआ जब मणिपुर में हिंसा की छिटपुट घटनाओं के साथ एक असहज शांति बनी हुई है। 1 सितंबर को, असम राइफलस ने थोबल जिले में एक संयुक्त अभियान के दौरान हथियार और युद्ध सामग्री बरामद की, जिसमें एक 303 राइफल के साथ एक मेगजीन और दो हथगोले शामिल थे। 3 मई को जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 160 से अधिक लोग मारे गए हैं और कई सैकड़ों घायल हुए हैं, जब मेंड्रेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा की मांग के विरोध में राज्य के पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किया गया था। मणिपुर की आबादी में मतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। नागा और कुकी सहित जनजातियाँ 40 प्रतिशत हैं और ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहती हैं।

**छात्र की मौत के एक महीने बाद, जाधवपुर विश्वविद्यालय ने सख्त छात्रावास नियम जारी किए**

जाधवपुर । जाधवपुर विश्वविद्यालय के मुख्य छात्रावास की दूसरी मंजिल की बालकनी से गिरकर प्रथम वर्ष के एक छात्र की मौत के बाद, विश्वविद्यालय ने छात्रावासों में सख्त नियम और कानून लागू करने का निर्णय लिया। यूनिवर्सिटी के डीन की ओर से एक नोटिस जारी कर हॉस्टल में रहने वालों से रात 10 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर न रहने की अपील की गई है, इसमें यह भी कहा गया है कि छात्रावास से अनुपस्थिति की स्थिति में संबंधित छात्रावास अधीक्षक से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए। यह नोटिस जादवपुर विश्वविद्यालय पैनल द्वारा इस बात की पुष्टि करने के कुछ सप्ताह बाद आया कि छात्र की मौत रैमिंग के कारण हुई थी। छात्रावासी किसी भी स्थिति में रात 10 बजे के बाद छात्रावास के बाहर नहीं रहेंगे और मौजूदा विश्वविद्यालय छात्रावास नियमों के अनुसार छात्रावास से अनुपस्थित होने की स्थिति में संबंधित छात्रावास अधीक्षक से पूर्व अनुमति लेनी होगी, जो बोर्ड के समय प्रत्येक बोर्डर को दी गई थी। छात्रावास में प्रवेश नोटिस में कहा गया है। नोटिस में कहा गया कि बोर्डर्स को अपने संबंधित आगंतुकों के साथ आगंतुक कक्ष या टीवी-सह-नॉनरजन कक्ष में रहने की अनुमति है, जहां एक विशिष्ट आगंतुक कक्ष उपलब्ध नहीं है। आगंतुकों को अपना आईडी प्रमाण रखना होगा और पते और मोबाइल नंबर के साथ अपना नाम पंजीकृत करना होगा छात्रावास आगंतुकों के प्रवेश रजिस्टर को सुरक्षा कर्मियों की हिरासत में छात्रावास के प्रवेश द्वार पर रखा गया है।

**गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से जुड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने शुरु किया विशेष अभियान**

नई दिल्ली । पंजाब पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से जुड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए बृहस्पतिवार को कई जगहों पर छापेमारी शुरू की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विशेष अभियान सुबह करीब सात बजे शुरू हुआ जो अब भी राज्य के सभी मंडलों में जारी है। सूत्रों ने बताया कि विरिष्ठ अधिकारियों सहित पुलिस की कई टीम इस अभियान का हिस्सा है। गोल्डी बराड़ गायक सिद्ध मूसेवाला की हत्या का मुख्य आरोपी है। सिद्ध मूसेवाला के नाम से लोकप्रिय शुभदीप सिंह सिद्ध की पिछले साल 29 मई को मानसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सतींदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ पंजाब में श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला है और वह 2017 में छात्र वीजा पर कनाडा चला गया था। वह लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सक्रिय सदस्य है।

**नोएडा : लहसुन विक्रेता को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में फरार आरोपियों की तलाश जारी**

नईदिल्ली । नोएडा सेक्टर-88 में लहसुन विक्रेता को निर्वस्त्र कर सब्जी मंडी में घुमाने के मामले में दो फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिसकर्मियों की तीन टीम गठित की गई है। पुलिस ने एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी सुंदर और भगवानदास को मंगलवार को ही गिरफ्तार किया जा चुका है। फेज-दो के प्राथमरी निरीक्षक विंध्यावल तिवारी ने बताया कि आरोपियों ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया है, लेकिन दोनों की अंतिम लोकेशन दिल्ली में मिली थी। उन्होंने बताया कि फरार आरोपियों के बारे में पता चला है कि वे गाजियाबाद और शाहजहापुर के रहने वाले हैं। इस संबंध में टीम ने बुधवार को सब्जी मंडी के स्थानीय लोगों से पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक, मैनुप्री निवासी सब्जी विक्रेता सेक्टर-88 स्थित मंडी में टैले पर लहसुन बेवता है। उसने एक महीने पहले सुंदर नामक आदमी से 5,600 रुपये का सामान उधार लिया था। सोमवार को उसने आदमी सुंदर को 2,500 रुपये दे दिए और बाकी पैसे बाद में देने की बात कही। पूरे पैसे एक बार में नहीं मिलने से नाराज सुंदर ने अपने मुनीम और दो मजदूरों को बुलाया और चारों ने मिलकर लहसुन विक्रेता को दुकान में बंद कर दिया तथा डंडों से उसकी पिटाई की और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने बताया कि इतना ही नहीं आरोपियों ने लहसुन विक्रेता को निर्वस्त्र कर सब्जी मंडी में घुमाया भी। इस घटना का वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद देर शाम पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

**दिल्ली में न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता का स्तर 80 प्रतिशत**

नई दिल्ली । दिल्ली में बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से दो डिग्री अधिक है। मौसम कार्यालय ने यह जानकारी दी। मौसम कार्यालय ने कहा कि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने बुलेटिन में बताया कि दिन में बादल छाए रहने का अनुमान है और सुबह साढ़े आठ बजे आर्द्रता का स्तर 80 प्रतिशत रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार सुबह नौ बजे समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 110 रहा, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है। शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है।

**पांच साल की बच्ची से बलात्कार के आरोप में पड़ोसी गिरफ्तार**

नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के फरेंदा इलाके में पांच साल की बच्ची से बलात्कार के आरोप में उसके पड़ोसी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस उपाधीक्षक अनुज कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को पांच साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी उसका पड़ोसी मोहित (20) उसे किसी बहाने से अपने घर ले गया और कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया।

**‘बिना सोचे-समझे घोषणाएं कर रहे हैं सीएम शिवराज’, मध्य प्रदेश में हर तरफ व्याप्त है भ्रष्टाचार: कमलनाथ**

भोपाल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर राजनीति लगातार जारी है। इन सब के बीच राज्य कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने गुरुवार को दावा किया कि लोग मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार को हटाने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है और हर दिन एक नया घोटाला सामने आता है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का गवाह है या फिर पीड़ित। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? अब बीजेपी को खुद ये कहने में शर्म आ रही है कि वो उनके मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले कमलनाथ ने ट्वीट कर



कहा कि शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार ने मध्य प्रदेश के नौजवानों का वर्तमान और भविष्य दोनों छीन लिए हैं। पहले तो शिवराज सरकार ने नर्सिंग कॉलेज में मान्यता देने, फैकल्टी की नियुक्ति करने, एडमिशन करने और डिग्री देने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया और अब न्याय

घोटाला हुआ। 3 साल से परीक्षाएं न होने से छात्र परेशान हो रहे हैं और अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के छात्र आपसे पूछ रहे हैं कि आपको इस अपराध के लिए क्या दंड दिया जाए?

नाथ ने दावा किया कि चौहान साल के अंत में होने वाले राज्य चुनावों से पहले नोटकी कर रहे हैं और बिना सोचे-समझे घोषणाएं कर रहे हैं जैसे कि उन्हें लगता है कि वह अगले पांच साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे। नाथ ने कहा कि एक करोड़ युवा बेरोजगार हैं। यह सबसे बड़ी चुनौती है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस नियमित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार और राज्य में '50 प्रतिशत कमीशन राज' के अस्तित्व के आरोपों के साथ हमला करती रही है।

**छत्तीसगढ़ रैली में प्रियंका गांधी का बीजेपी पर वार, बोलीं- धर्म और जाति के मुद्दों को सामने लाकर लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा**

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र पर तोखा हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि देश की समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए धर्म और जाति के मुद्दे उछाले जा रहे हैं। गुरुवार को चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में 'महिला समृद्धि सम्मेलन' को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि आज राजनीतिक उद्देश्यों के लिए लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि धर्म और जाति के मुद्दों को सामने लाकर उनका ध्यान भटकाया जा सके। यह लोगों को अपनी शिकायतों न उठाने देने की एक राजनीतिक साजिश है। कांग्रेस महासचिव गुरुवार को रायपुर पहुंची क्योंकि उनकी पार्टी ने राज्य चुनावों से पहले अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। उनका स्वागत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके डिप्टी टीएस सिंह देव ने किया। भिलाई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, मैंने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी ध्यान खरीदी का श्रेय लेते हैं। मैं पूछती हूँ कि अगर मोदी सरकार ही छत्तीसगढ़ का ध्यान खरीद रही है तो



उत्तर प्रदेश के किसान धान 1200-1400 रुपए में क्यों बेच रहे हैं? वहां तो उनकी ही सरकार है। अखबार पशु से लोग परेशान हैं। अपनी खेती की रखवाली के लिए लोगों को पूरी रात खेत में बैठना पड़ रहा है। हमने यह समस्या छत्तीसगढ़ में हल की है।' उन्होंने कहा कि पीडित जवाहर लाल नेहरू जी ने 1955 में भिलाई में स्टील प्लांट की नींव डाली थी। या कहें तो आधुनिक भारत की नींव यहीं पड़ी थी। भिलाई, देश की उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता के

**सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी प्राधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से किया इनकार**

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु को अस्थायी रूप से 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने प्राधिकरण को हर 15 दिन में बैठक करने का आदेश

कृमार मिश्रा की पीठ ने तमिलनाडु की एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें समिति के आदेश को इस आधार पर बरकरार रखा गया था कि वह बारिश की कमी से सूखे जैसी स्थिति का सामना कर



रहा है। पीठ ने कहा कि वह तमिलनाडु की याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा कि सीडब्ल्यूएमए और कावेरी जल नियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) जैसी विशेषज्ञ संस्थाओं ने सूखे और कम बारिश जैसे सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार किया और फिर यह आदेश पारित किया। इसलिए पीठ कर्नाटक को 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश देने संबंधी आदेश में दोखल नहीं देगी। इससे पहले कर्नाटक में 'सूखे जैसी स्थिति' का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बुधवार को कहा था कि राज्य सरकार सीडब्ल्यूएमए के आदेश पर स्थगन का अनुरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी।

रहा है। पीठ ने कहा कि वह तमिलनाडु की याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा कि सीडब्ल्यूएमए और कावेरी जल नियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) जैसी विशेषज्ञ संस्थाओं ने सूखे और कम बारिश जैसे सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार किया और फिर यह आदेश पारित किया। इसलिए पीठ कर्नाटक को 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश देने संबंधी आदेश में दोखल नहीं देगी। इससे पहले कर्नाटक में 'सूखे जैसी स्थिति' का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बुधवार को कहा था कि राज्य सरकार सीडब्ल्यूएमए के आदेश पर स्थगन का अनुरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी।

**भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय पांडा की जान को खतरा! ओडिशा के मंत्री नबा दास जैसा ही हश्र करने की मिली धमकी**

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा को ओडिशा के कैबिनेट मंत्री नबा दास जैसा हश्र करने की धमकी दी गई है। दास की इस साल जनवरी में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। कथित तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के एक सहायक को एक धमकी भरा कॉल आया था जिसमें 'कॉल करने वाले ने धमकी दी थी कि जय पांडा के साथ भी वही किया जाएगा जो नबा दास के साथ किया गया था'। जय पांडा के कार्यालय को सूचित किया कि क्या यह वास्तविक धमकी है या एक किशोर शरारत थी, यह निर्धारित करना हमारे लिए संभव नहीं है। चूंकि इस तरह के संदेश को हलके में नहीं लिया जाना चाहिए, धमकी भरे कॉल के सभी चिकुरों के साथ कत दिल्ली पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज की गई है जो मामले में जांच कर रही है। आपको बता दें कि वह 15वीं और 16वीं लोकसभा में

**राकांपा के मालिकाना हक में फैसला आने से पहले ही चाचा-भतीजे के सुर बदले -शरद पवार और भतीजे अजित पवार गुट के बड़े नेताओं ने एक होने का दिया संकेत**

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र में चाचा भतीजे की जोड़ी कब किस बयान पर राजतिज्ञों को परेशान कर दे, यह कोई नहीं बता सकता है। अब शरद पवार के भतीजे अजित पवार गुट के बड़े नेताओं ने एक बार यह कह कर चौंका दिया है कि दोनों गुटों में कोई मतभेद नहीं है। कहने को चाचा और भतीजे अब अलग हो चुके हैं लेकिन समय-समय पर एक होने के संकेत मिल रहे हैं। अब जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मालिकाना हक के फैसले की घड़ी नजदीक आ रही है तब फिर से जो राजनीतिक संकेत दोनों गुटों की ओर से दिये जा रहे हैं उससे राजनीतिक प्रेक्षक हैरान हैं। हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के शरद पवार और अजित पवार के नेतृत्व वाले दोनों गुटों के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि पार्टी में कोई विभाजन नहीं है और सभी एकजुट हैं। दोनों गुटों का यह बयान ऐसे समय आया है जब निर्वाचन आयोग ने अजित समूह की ओर से दापर याचिका के बाद छह अक्टूबर को राकांपा के प्रतिद्वंद्वी गुटों को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए बुलाया है।

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र में चाचा भतीजे की जोड़ी कब किस बयान पर राजतिज्ञों को परेशान कर दे, यह कोई नहीं बता सकता है। अब शरद पवार के भतीजे अजित पवार गुट के बड़े नेताओं ने एक बार यह कह कर चौंका दिया है कि दोनों गुटों में कोई मतभेद नहीं है। कहने को चाचा और भतीजे अब अलग हो चुके हैं लेकिन समय-समय पर एक होने के संकेत मिल रहे हैं। अब जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मालिकाना हक के फैसले की घड़ी नजदीक आ रही है तब फिर से जो राजनीतिक संकेत दोनों गुटों की ओर से दिये जा रहे हैं उससे राजनीतिक प्रेक्षक हैरान हैं। हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के शरद पवार और अजित पवार के नेतृत्व वाले दोनों गुटों के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि पार्टी में कोई विभाजन नहीं है और सभी एकजुट हैं। दोनों गुटों का यह बयान ऐसे समय आया है जब निर्वाचन आयोग ने अजित समूह की ओर से दापर याचिका के बाद छह अक्टूबर को राकांपा के प्रतिद्वंद्वी गुटों को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए बुलाया है।



निर्वाचन आयोग के समक्ष किये गये दावे में अजित पवार के गुट ने कहा कि उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इस मुद्दे पर शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल ने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा हमारे मामले को एक राजनीतिक दल के भीतर विवाद के रूप में मानना अनुचित है, जबकि हमने लगातार कहा है कि पार्टी में कोई विभाजन नहीं है। जयंत पाटिल ने संवाददाताओं से कहा, शरद पवार ने निर्वाचन आयोग को लिखे अपने पत्र में इस तथ्य पर जोर दिया कि उन्हें पार्टी के भीतर कभी

किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। मतलब इनमें कोई विवाद नहीं है। गौरतलब है कि जयंत पाटिल ने हाल ही में यह भी कहा था कि अगर पार्टी छोड़ने वाले लोगों का हदय परिवर्तन हो गया है और वे इसमें लौटना चाहते हैं तो उनके प्रस्तावों को अस्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि राजनीति में संख्या बल काफी महत्व रखता है। पाटिल ने दावा किया कि पार्टी छोड़ने वाले कुछ लोगों ने उनसे लौटने की इच्छा जतायी है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को पाला बदलने को लेकर जन भावनाओं का धीरे-धीरे पता चल रहा है। गौरतलब है कि एक और जगह भी महत्व रखता पार्टी (राकांपा) के दोनों गुट भारतीय निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना-अपना पक्ष रखने की तैयारियों में जुटे हैं वहीं अजित पवार खेमे के नेता और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल ने राकांपा प्रमुख शरद पवार के साथ नए संसद भवन में खींची गई पत्र तस्वीर को साझा किया। हालांकि शरद पवार खेमे ने इसे दिग्गज नेता की उदारता करार दिया है।

**‘पाकिस्तान जैसा हो गया कनाडा’, कांग्रेस सांसद का दावा- निज्जर गुरुद्वारों से फंड जुटाकर टूडो की पार्टी को देता था**



नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और कनाडा के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने बड़ा बयान दिया है। भारत-कनाडा तनाव के बीच मीडिया से बात करते हुए रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि मैं इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिड़्छी लिखी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में हमारी प्रधानमंत्री से इस बारे में बातचीत भी हुई है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के समक्ष उन बातों को रखा जिसकी चिंता पंजाब के लोगों को ज्यादा है। पंजाब के लाखों बच्चे वहां पढ़ते हैं या पढ़ने जाने

वाले हैं। उन्होंने वहां अपनी फीस जमा कर रखी है। अगर वीजा बंद होती है तो उसे उन पर काफी बड़ा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने मुझे भरोसा दिया है इसे हम अच्छी तरीके से देखेंगे। इसके बाद उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री और कनाडा पर भी जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि यहां किसी पार्टी की बात नहीं है, देश की बात है। उन्होंने जस्टिन टूडो पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका जहाज तो वैसे ही खटाऊ है। उन्होंने दावा किया कि भेरे दादाजी की जिसने हत्या की थी उसका दाहिना हाथ हरदीप सिंह

निज्जर था। वह यहां से 1993 में गया और उसे वहां नागरिकता दे दी गई। उन्होंने कहा कि निज्जर एंड कंपनी 10 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और ड्रग पैडलर्स से एक है। बाकी आठ को अभी भी वहां छुपा के रखा गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जैसे पहले पाकिस्तान हुआ करता था, वैसे कनाडा ने रूप ले लिया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि निज्जर जैसे जो गैंगस्टर है वह वहां से पंजाब में ड्रम भेज रहे हैं और यहां के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि निज्जर एंड कंपनी ने गुरुद्वारों

पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा कि इन गुरुद्वार में जो चढ़ावा चढ़ता है वहां का सारा पैसा टूडो की पार्टी को जाता है। भारत-कनाडा विवाद पर अकाली दल अध्यक्ष और सांसद सुरखवीर सिंह बादल ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच मौजूदा हालात का असर अब कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों में दहशत जैसी स्थिति बन रही है। भारत सरकार को जल्द ही कोई समाधान निकालना चाहिए। मैंने गृह मंत्री अमित शाह से यह अनुरोध किया है।

## कबाड़ में पड़ी 322 रुपये की पेंटिंग नीलामी में 1.58 करोड़ रुपये में बिकी

न्यू हैम्पशायर । कई बार लोगों के पास कोई बेशकीमती चीज होती है और उन्हें इसका अंदाजा नहीं होता है। हाल में न्यू हैम्पशायर की एक महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। महिला के घर में बंकाए पड़ी एक पुरानी पेंटिंग की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इसके बाद महिला को उस पेंटिंग के बारे में जो मालूम हुआ वह हरान करने वाला था। महिला को मालूम हुआ कि जिस पेंटिंग को वह मामूली समझ रही थी वह दरअसल करोड़ों की है। न्यू हैम्पशायर थ्रिप्ट स्टोर से केवल 4 डॉलर (332 रुपये) में खरीदी गई ये पेंटिंग 191,000 डॉलर (1.58 करोड़ रुपये) में नीलाम हुई। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि भला इतने सस्ते में खरीदी गई पेंटिंग के लिए अचानक किसी ने इतने अधिक पैसे कैसे दे दिए ?



दरअसल, विशेषज्ञों के अनुसार जाने माने आर्टिस्ट एन.सी. वायथ की लंबे समय से खोई हुई पेंटिंग थी। ये एक मास्टरपीस थी। रमोना नामक पेंटिंग, पेंसिल्वेनिया स्थित कलाकार द्वारा हेलेन हंट जैक्सन की 1884 की पुस्तक रमोना के 1939 संस्करण के लिए बनाई गई चार पेंटिंग में से एक थी। पेंटिंग में एक अनाथ युवा महिला को अपनी सीतेली माँ के साथ संघर्ष में दर्शाया गया है। ऑक्शन हाउस बोनेहमस स्किकन ने कहा कि विशेषज्ञों ने इस पेंटिंग को खोया हुआ मान लिया था, लेकिन यह न्यू हैम्पशायर की एक महिला के पास मिली तब लोग हैरान रह गए। महिला ने बताया कि यह पेंटिंग अपने स्थानीय सेवर्स थ्रिप्ट स्टोर से 4 डॉलर (332 रुपये) में खरीदी थी और स्टोर रूम में फेंकने से पहले वह लंबे समय तक घर की सजावट में लटकी हुई थी।

## ऑफिस में सहकर्मियों पर खांसने वाले कोरोना संक्रमित को हो गई जेल

सिंगापुर । दुनिया में अभी भी कोरोना का खौफ बरकरार है। यही वजह है एहतियात नहीं बरतने पर एक शख्स को जेल की हवा खानी पड़ रही है। हालांकि इसके बचाव के लिए 6 फीट की दूरी और खासते समय रुमाल का उपयोग बेहद अहम है, ताकि इसके संक्रमण को रोका जा सके। एहतियात नहीं बरतने पर सिंगापुर में 64 वर्षीय भारतीय मूल के एक शख्स को दो सप्ताह की जेल की सजा सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक शख्स की पहचान तमिलसेल्वम रमैया के रूप में हुई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर अपना मास्क निकालकर अपने सहकर्मियों पर खांसा। रमैया को विड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था, यह मालूम होने के बादव उनको अपने साथियों के साथ ऐसी हरकत की। यह मामला 2021 का है, हालांकि आरोपी को बीते सोमवार को दो सप्ताह की जेल की सजा सुनाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तमिलसेल्वम उस समय लिओग हूप सिंगापुर के लिए सफाईकर्मी के रूप में कार्यरत थे। 18 अक्टूबर, 2021 को सुबह 6 बजे सेनोको पर काम करने के बाद, उन्होंने सहायक लॉजिस्टिक्स मैनेजर को बताया कि वह अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। उन्हें एंटीजन रैपिड टेस्ट कराने के लिए कहा गया था। जब उनका परीक्षण किया तो वह कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। इसके बाद वह कंपनी के लॉजिस्टिक्स कार्यालय गए। तमिलसेल्वम एक कंपनी ड्राइवर के साथ ऑफिस गए और उन्होंने वहां दो बार बिना मास्क के खांसा। ऑफिस में एसी चल रहा था और वह पूरी तरह से बंद था। रमैया की यह हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके बाद जिन सहकर्मियों को खांसी हुई, वे चिंतित हो गए क्योंकि उन्हें पता था कि तमिलसेल्वम कोरोना पॉजिटिव हैं। जिस वलक के सामने उन्होंने खांसा वह एक डायलिसिस रोगी था जो हृदय और गुर्दे की समस्याओं से पीड़ित था। खांसी होने के बाद उन्होंने खुद पर एंटीबॉटी लगाया। इसके बाद तमिलसेल्वम एक पॉलीक्लिनिक गए जहां उन्हें एक और स्वेब टेस्ट और तीन दिन का मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया। उन्हें खुद को घर पर ही क्वारंटाइन करने के लिए भी कहा गया था। कंपनी के असिस्टेंट लॉजिस्टिक्स मैनेजर ने घटना की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें छह महीने तक की जेल और 10 हजार सिंगापुर डॉलर का जुर्माना लगाया गया।

## कुत्तों का वायरस फैल रहा इंसानों में, - ब्रिटेन में अब तक 3 संक्रमित

लंदन । ब्रिटेन में कुत्तों का वायरस अब इंसानों में फैल रहा है। कुत्तों से जुड़े बुसेला कैनिन नामक जीवाणु संक्रमण के तीन मामले यूके में सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। इन मामलों का स्वास्थ्य विभाग भी सकत में है। यह रोग आमतौर पर कुत्तों में दर्द, लंगड़ापन और बांझपन का कारण बनता है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि आमतौर पर देखा गया है कि कुत्तों में यह बीमारी लाइलाज होती है और इससे उनकी जान का खतरा भी पैदा हो जाता है। वहीं, इंसानों में इस बीमारी का प्रसार होने बावजूद इसका असर काफी हल्का देखा गया है। बताया गया कि इसके परिणामस्वरूप लोगों को मेनिंगजाइटिस और सेप्टीसीमिया हो सकता है। वेडो हेस नामक एक बुजुर्ग महिला के पास कुल पांच कुत्ते हैं। वो बुसेला कैनिन नामक जीवाणु संक्रमण का शिकार होने वाली पिछले साल ब्रिटेन के पहली इंसान बनी थी। जिसके बाद उन्हें अपने कुत्तों से दूर होने पर मजबूर होना पड़ा था। बताया गया कि उन्हें यह बीमारी पालतू कुत्ते मुशा द्वारा बच्चे को जन्म देने के दौरान उस वकत निकले तरल पदार्थ के कारण हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि संक्रमण से ग्रस्त एक अन्य मामले में पीड़ित व्यक्ति पशु चिकित्सक के यहां काम किया करता था। उसमें कोई लक्षण नहीं थे और नियमित परीक्षण के माध्यम से उसके अंदर इस वायरस के संक्रमण की पहचान की गई।

## पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन की खुली धमकी, नागरिक चुनाव में वोटिंग करने मतदान केंद्र नहीं जाए

इस्लामाबाद । आने वाले दिनों में पाकिस्तान में आम चुनाव होने हैं। इस लेकर आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रॉविंस (आईएसपीपी) ने जनता को डराने इस्तेमाले वाला बयान जारी किया है। आतंकवादी संगठन ने अपने बयान में पाकिस्तानी नागरिकों को धमकी दी है कि वह देश में आगामी चुनाव के दौरान होने वाली राजनीतिक रैलियों, जुलूसों में भाग न लें और ना ही अपना वोट देने मतदान केंद्रों पर जाए। संगठन ने खुली धमकी देकर कहा है कि चुनाव के दौरान होने वाली रैलियों, जुलूस और मतदान केंद्र आतंकवादी संगठन के निशाने पर हैं। आतंकी संगठन की ओर से कहा गया है कि यदि पाकिस्तानी नागरिक चुनाव में हिस्सा लेते हैं, तब मुजाहिदीन की तलवार उन पर कहीं भी किसी भी समय गिर सकती है। इस खून के लिए मुजाहिदीन किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रॉविंस नाम का यह आतंकवादी संगठन दूसरे आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़ा हुआ है जो साल 2019 में पाकिस्तान में बना था ? यह संगठन ज्यादातर आत्मघाती हमलों को अंजाम देता है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान जाती है। इस संगठन ने बीती 30 जुलाई को पाकिस्तानी राजनीतिक दल जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल (जेयूआई-एफ) की एक चुनावी रैली में आत्मघाती बम विस्फोट किया था। जिसमें एक क्षेत्रीय जेयूआई नेता सहित कम से कम 54 लोग मारे गए थे। इस संगठन ने पाकिस्तान में कम से कम 15 आत्मघाती हमले किए हैं, जिसमें 550 से अधिक लोग मारे गए हैं। इन हमलों में से पांच में सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया और 10 में नागरिकों को निशाना बनाया गया था। इन आत्मघाती हमलों ने एक शिया मस्जिद, एक मतदान केंद्र, एक ईसाई चर्च, दो सूफी मंदिरों, एक बाजार आदि को निशाना बनाया था।

## शहबाज फिर लंदन रवाना, पाकिस्तान वापसी से पहले गारंटी चाहते हैं शरीफ भाई

इस्लामाबाद । पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग देश में आम चुनाव जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में कराय जाने की घोषणा के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज पार्टी प्रमुख नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ वतन वापसी को बेकारार हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगले महीने नवाज के पाकिस्तान से लौटने से पहले शरीफ बंधु 'कुछ गारंटी' चाहते हैं। 'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार दो दिन पहले लंदन से लाहौर लौटे शहबाज फिर से अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए बृहस्पतिवार को विमान से रवाना हो गए।

# लिस्ट तैयार, रोएंगे टूडो और खालिस्तानी इस बार, अब होगा मोदी-डोभाल का एक्शन

(एजेंसी) । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआई) ने आतंकवादी गैंगस्टर नेटवर्क पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी ने 43 कुख्यात आरोपी व्यक्तियों को तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें से कुछ कनाडा में स्थित हैं। विभिन्न प्रकार की अपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में इन व्यक्तियों पर आतंकवादी संगठनों से संबंध होने का संदेह है। एनआईए ने कुछ आरोपियों को तस्वीरें जारी की हैं। एनआईए द्वारा जारी की गई सूची में कुछ मोस्ट वांटेड अपराधी शामिल हैं, जो देश से भाग गए हैं और उन पर खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ शामिल होने का आरोप है।



की जांच से पता चला है कि वह कनाडा से ऑपरेट करता है।

2. **लखवीर सिंह लिंडा:** कनाडा में रहने वाला लिंडा पंजाब में (रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड) आरपीजी हमले सहित विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। वह कनाडा से संचालित होने वाले आतंकी-आपराधिक सिंडिकेट को संभाल रहा है। लिंडा पर हाई-प्रोफाइल हत्याओं की साजिश रचने, उन्हें अंजाम देने और उन्हें अंजाम देने का आरोप है। उस पर कनाडा में रहते हुए भगोड़ों और गैंगस्टरों को आश्रय और धन सहेया कराने का भी आरोप है।

3. **गोल्ड्डी बराड़:** बराड़ को सिद्धू मूस वाला की हत्या का मास्टरमाइंड माना जाता है। पंजाबी गायक की पिछले साल मई में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

4. **लॉरेंस बिश्नोई:** भारत में सबसे कुख्यात

गैंगस्टरों में से एक के रूप में जाना जाता है, बिश्नोई एक दुर्जेय आतंकवादी-अपराध सिंडिकेट की धुरी है।

5. **अनमोल बिश्नोई:** माना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल फिलहाल संयुक्त राज्य अमेरिका में छिपा हुआ है। वह सिद्धू मूस वाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी है।

6. **जगदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरी:** जगदीप सिंह, जो वर्तमान में पंजाब की जेल में बंद है, पर आतंकवादी संगठनों को स्थानीय समर्थन प्रदान करने का संदेह है। कहा जाता है कि वह सलाखों के पीछे से ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से नशीली दवाओं की तस्करी का संचालन करता था।

यह कदम भारत के भीतर और इसकी सीमाओं के पार संगठित अपराध और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के एनआईए के चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में उठया गया है। इनमें से कई आरोपी वर्तमान में भारतीय जेलों में हैं, जबकि अन्य बड़े पैमाने पर हैं, जो विदेशी धरती से काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर रहे हैं। एनआईए ने जनता से अपील की है कि वे इन वांछित अपराधियों के टिकानों, संपत्तियों और व्यापारिक लेनदेन के संबंध में कोई भी जानकारी प्रदान करें।

## ईरान की संसद ने हिजाब के संबंध में पारित किया सख्त कानून, महिलाओं को करना होगा पालन

(एजेंसी) । ईरान की संसद ने एक विधेयक पारित किया है जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने से इनकार करने वाली महिलाओं तथा उनका साथ देने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। ईरान ने यह कदम 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत के एक वर्ष पूरा होने के कुछ वक्त बाद उठाया है।

महसा अमीनी को इस्लामिक परिधान परंपरा का पालन नहीं करने के आरोप में 'मोरैलिटी पुलिस' ने हिरासत में लिया था। बाद में अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। घटना के विरोध में देश में कई महीनों तक प्रदर्शन हुए थे और सत्ता विरोधी स्वर भी तेज हुए थे।

हिजाब को लेकर पारित इस विधेयक में हिजाब नहीं लगाने पर महिलाओं पर भारी जुर्माने के अलावा उन कारोबारियों को भी दंड देने का प्रावधान है जो हिजाब नहीं पहनी महिलाओं को सामान बेचते हैं या अन्य प्रकार की सेवाएं देते हैं।

इस विधेयक के खिलाफ लामबंद होने पर अधिकार कार्यकर्ताओं को भी दंडित किए जाने की प्रावधान है। दोषियों को इन अपराधों के लिए दस वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। ईरान की 290



सदस्यीय संसद में 152 सांसद इसके पक्ष में थे।

इस विधेयक को अब अंतिम मंजूरी के लिए 'गार्डियन कार्सिल' के पास भेजा जाएगा। यह मौलवियों की एक इकाई है जो संवैधानिक निगरानीकर्ता के तौर पर काम करती है।

अमीनी की मौत के बाद 16 सितंबर 2022 से

देशभर में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। प्रदर्शनकारियों पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई की जिससे इस वर्ष की शुरुआत में जाकर प्रदर्शनों पर काबू पाया जा सका। सरकार की कार्रवाई में 500 से अधिक प्रदर्शनकारी मारे गए और 22,000 से अधिक को हिरासत में लिया गया।

## जापानी पीएम किशिदा की अपील- परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने के प्रयासों पर फिर हो काम

इंटरनेशनल डेस्क : जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने मंगलवार रात कहा कि वह दुनियाभर में परमाणु हथियारों को खत्म करने के प्रयासों का नेतृत्व करना चाहते हैं और परमाणु हथियार संपन्न देशों को उन देशों के साथ चर्चा में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिनके पास परमाणु हथियार नहीं हैं। किशिदा ने परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर रोक लगाने को लेकर 1993 में हुई संधि 'फिसाइल मैटैरियल कंट्रोल ट्रीटी' पर फिर से चर्चा करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर संयुक्त राष्ट्र में कभी बात नहीं हुई। हालांकि, इस संधि की प्रासंगिकता में अब भी कोई कमी नहीं आई है।

# रूस का बड़ा मिसाइल अटैक, राजा चार्ल्स तृतीय ने ब्रिटेन और फ्रांस की हमले में 18 लोग घायल

कोव (एजेंसी) । यूक्रेन अधिकारियों ने कहा कि रूस ने गुरुवार को कोव और पूरे यूक्रेन में हफ्तों में अपना सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया, जिसमें कम से कम 18 लोग घायल हो गए, ऊर्जा सुविधाओं को नुकसान पहुंचा और बिजली कटौती हुई। पश्चिम, केंद्र और पूर्व में पांच यूक्रेनी क्षेत्रों में आंशिक बिजली कटौती की सूचना मिली, जिससे पिछली सर्दियों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर रूसी हवाई अभियान की यादें ताजा हो गईं, जिसके कारण यूक्रेनी नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।

ग्रिड ऑपरटर उक्रेनो ने टेलीग्राम मेंसेज पर एक बयान में कहा कि छह महीने में पहले दुश्मन के हमले के परिणामों के कारण, पश्चिम और मध्य क्षेत्रों में ऊर्जा सुविधाओं को नुकसान हुआ है। इसमें कवा, गिरा है कि रिन्ने, चार्ल्सटॉन, कोव, निग्रैपेट्रेनो और खार्किव क्षेत्रों में आंशिक ब्लैकआउट थे।

उन्होंने टेलीग्राम पर कहा कि मिसाइलों को कई तरंगों में लॉन्च किया गया था। उन्होंने लगातार अपना मार्ग बदलते हुए कई दिशाओं से यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया। रॉथटर्स के प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि भोर होते ही गोरदार धमाकों से कोव और आस्प्यास का क्षेत्र दहल गया। अधिकारियों ने राजधानी में कई स्थानों पर बचाव दल भेजने की सूचना दी है। मेयर विटाली क्लिट्स्को ने कहा कि राजधानी में नौ साल की लड़की सहित सात लोग घायल हो गए। उन्होंने कहा कि मिसाइल का मलबा शहर के केंद्र में गिरा और एक बुनियादी सुविधा और कई गैर-आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे आग लग गई।



ब्रेक्सिट के बावजूद, हम चुनौतियों का सामना करने और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक साथ मिलकर अपने महाद्वीपों के भविष्य का हिस्सा लिखना जारी रखेंगे, जो हमारे बीच समान हैं। राजा चार्ल्स तृतीय, अपनी पत्नी रानी कैमिला के साथ, शुक्रवार को यात्रा के अंतिम चरण के रूप में बोर्डों जाने से पहले

# भारतवंशी से मिल रही ट्रंप को कड़ी चुनौती, रिपब्लिकन पार्टी को लेकर आए नए सर्वेक्षण में विवेक रामास्वामी ने जमा दी धाक

वाशिंगटन (एजेंसी) । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद भारतीय अमेरिकी उद्यमी विवेक रामास्वामी अब सबसे लोकप्रिय उद्यमी विवेक रामास्वामी के गवर्नर रॉन डेसेंटिस, जिन्हें पहले ट्रंप के मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जाता था, उनके वोटिंग शेयर में काफी गिरावट देखी गई है और अब वह 5वें स्थान पर हैं। सीएनएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि डेसेंटिस की गिरावट नरमपंथियों के बीच भारी गिरावट के कारण हुई है, जो जुलाई में उनके समर्थन में 26 प्रतिशत से बढ़कर अब 6 प्रतिशत हो गई है।

सीएनएन सर्वेक्षण के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप अभी भी राष्ट्रपति पद की दौड़ में सबसे लोकप्रिय रिपब्लिकन नेता हैं, लगभग 39 प्रतिशत जो अभी

प्राथमिक मतदाता उनका समर्थन कर रहे हैं। सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि बड़ी संख्या में मतदाता अब से लेकर अगले साल जनवरी में होने वाली रिपब्लिकन प्राइमरी के बीच अपना मन बदलने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा, अन्य उम्मीदवारों की तुलना में ट्रंप मतदाताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि उन्होंने अपना मन बना लिया है। सर्वेक्षण से पता चला कि प्राइमरी में 69% ट्रंप मतदाताओं का कहना है कि उन्होंने अन्य उम्मीदवारों के लिए 18 वीं की तुलना में अपना मन बना लिया है। एक अन्य भारतीय अमेरिकी उम्मीदवार पूर्व दक्षिण कैरोलिना की गवर्नर निक्की हेली 12% वोट शेयर के साथ रामास्वामी से पीछे हैं, उनके बाद न्यू जर्सी के पूर्व गवर्नर क्रिस क्रिस्टी 11% वोट शेयर के साथ और दक्षिण कैरोलिना के सीनेटर टिम स्कॉट 6% वोट शेयर के साथ दूसरे स्थान पर हैं।



सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, रामास्वामी का उदय उन मतदाताओं के बीच केंद्रित है जो पंजीकृत रिपब्लिकन नहीं हैं और युवा मतदाताओं के बीच है। इस बीच, औपचारिक शिक्षा प्राप्त मतदाताओं और नरमपंथियों में हेले के मतदाताओं की संख्या अधिक है। रिपब्लिकन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के अधीन व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव और वर्तमान में फॉक्स न्यूज में एंकर और राजनीतिक टिप्पणीकार डाना पर्रिनो ने कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे उनके नेतृत्व में संघ लगाने में सक्षम नहीं होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप उनके पास एक प्रभावशाली और स्पष्ट रूप से बहुमत स्थायी नेतृत्व है। यह इन उम्मीदवारों पर निर्भर है कि वे क्यों सोचते हैं कि वे बेहतर होंगे।

## इमरान खान पर नौ मई की हिंसा के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप



इस्लामाबाद । पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है जिसमें अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान है। पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। खान पर सैना के प्रतिष्ठानों पर हमले की साजिश रचने और लोगों को विद्रोह के लिए उकसाने को लेकर आरोप लगाए गए हैं। भ्रष्टाचार के एक मामले में अर्धसैनिक रेंजर्स द्वारा नौ मई को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष खान (70) की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए थे। खान को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। दंगों के दौरान रावलपिंडी में सैन्य मुख्यालय सहित दर्जनों सैन्य प्रतिष्ठानों और सरकारी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थीं या उन्हें आग के हवाले कर दिया गया था। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के 100 से अधिक वाहनों में भी आग लगा दी गई थी।

## अगले साल जनवरी में होंगे पाकिस्तान में आम चुनाव



इस्लामाबाद (एजेंसी) ।

पाकिस्तान में आम चुनाव जनवरी, 9 अगस्त को समय से पहले भंग कर दिया गया था। अपने कार्यकाल की समाप्ति से कुछ दिन पहले, शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने घोषणा की थी कि नई जगणगना पूरी होने के बाद ही चुनाव हो सकते हैं। नेशनल असेंबली के विघटन के 90 दिनों के भीतर चुनाव होने थे। हालांकि, पिछली सरकार के इस कदम से यह आशंका पैदा हो गई थी कि इन्हें अगले साल तक विलंबित किया जा सकता है। इसी पर पाकिस्तान के कई राजनीतिक दलों की ओर से परिसीमन की समय सीमा कम करने का दबाव था, जिसे पूरा होने में आम तौर पर लगभग चार महीने लगेंगे।

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को 9 अगस्त को समय से पहले भंग कर दिया गया था। अपने कार्यकाल की समाप्ति से कुछ दिन पहले, शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने घोषणा की थी कि नई जगणगना पूरी होने के बाद ही चुनाव हो सकते हैं। नेशनल असेंबली के विघटन के 90 दिनों के भीतर चुनाव होने थे। हालांकि, पिछली सरकार के इस कदम से यह आशंका पैदा हो गई थी कि इन्हें अगले साल तक विलंबित किया जा सकता है। इसी पर पाकिस्तान के कई राजनीतिक दलों की ओर से परिसीमन की समय सीमा कम करने का दबाव था, जिसे पूरा होने में आम तौर पर लगभग चार महीने लगेंगे।



# बोल राधा बोल से आया था जूही के कॅरियर में उछाल

साल 1992 में बालीवुड जूही चावला की फिल्म बोल राधा बोल आई थी। इस फिल्म से जूही के करियर में काफी उछाल आया था। इस फिल्म में वह ऋषि कपूर के अपोजिट दिखी हैं। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों का काफी पसंद आई थी। इसके साथ ही फिल्म के गाने लोगों को काफी पसंद आए थे।

बोल राधा बोल फिल्म को डेविड धवन ने निर्देशित किया था। यह एक रोमांटिक, क्राइम, एक्शन फिल्म थी जो सिनेमाघरों में आते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। लेकिन इस बात को बेहद कम लोग जानते हैं कि जिस फिल्म से जूही चावला, ऋषि कपूर संग खूब पसंद की गई थी। दरअसल, उस फिल्म को करने से जूही चावला बेहद डरी हुई थीं। बता दें कि साल 1992 में जूही चावला की एक फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें उनका नाम राधा था। उस फिल्म का नाम राधा का संगम था। इस फिल्म को डायरेक्टर कीर्ति कुमार ने निर्देशित किया था। जूही गोविंदा के अपोजिट देखी गई थीं। हालांकि अफसोस यह रोमांटिक कॉमेडी फिल्म उस साल बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। एक रिपोर्ट्स के अनुसार, राधा का संगम डिजास्टर साबित होने के बाद जूही चावला इतनी ज्यादा डर गई थी कि वह इस राधा नाम से कोई फिल्म करना चाहती थी। ऐसे में जब डेविड धवन ने उन्हें फिल्म बोल राधा बोल के लिए उन्हें अप्रोच किया तो चाह कर भी उस फिल्म को नहीं करना चाहती थीं क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी ये फिल्म भी फ्लॉप ना हो जाए। हालांकि इस बार ऐसा नहीं हुआ। बोल राधा बोल साल 1992 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल थी। बता दें कि जूही चावला अब भले ही कम फिल्में करती हैं लेकिन एक वक्त था जब उनके नाम की तूती बोलती थी। जूही चावला ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1986 में आई फिल्म सलतनत से की थी। जूही के करियर को 37 साल हो चुका है। हालांकि उन्होंने ने बिजनेसमैन जय मेहता को 1997 में शादी कर बॉलीवुड से दूरी बना ली थी।

अब वह फिल्मों कम एक्टिव हैं। सलतनत फिल्म के बाद वह उन्होंने बॉलीवुड को उन्होंने 1986 में सलतनत से अभिनय की शुरुआत की। उनकी पहली व्यावसायिक सफलता ब्लॉकबस्टर कन्नड़ फिल्म प्रेमलोक (1987) थी। उन्होंने लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता कयामत से कयामत तक, अमर प्रेम (1989), विकी दादा (1989), लव लव लव (1989), प्रतिबन्ध (1990), स्वर्ग (1990), बेनाम बादशाह (1991), और राजू बन गया जेंटलमैन (1992) जैसी फिल्में दी।

## मौनी रॉय को सुल्तान ऑफ दिल्ली की रिलीज का इंतजार

एक्ट्रेस मौनी रॉय पहली स्ट्रीमिंग सीरीज सुल्तान ऑफ दिल्ली की रिलीज का इंतजार कर रही हैं। सुल्तान ऑफ दिल्ली 13 अक्टूबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। मौनी को सीरीज में किरदार के लिए उन्हें 200 आउटफिट्स और अपने बालों के साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़े।

मौनी इस बात से बेहद खुश हैं कि उन्हें एक बेहद स्टाइलिश किरदार निभाने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। मौनी वलासिक, खूबसूरत ड्रेस और हेयर-स्टाइल के साथ रेडो वाइब अपनाती नजर आएंगी। सुल्तान ऑफ दिल्ली अर्नब रे की किताब सुल्तान ऑफ दिल्ली-असेशन पर बेस्ड है। यह स्ट्रीमिंग के लिए बनाई गई एक लार्जर देन लाइफ मास पंटरटेनर है। इसमें अनुपिया गोयनका, हरलीन सेठी और महररीन पीरजादा के साथ ताहिर राज भसीन, अंजुम शर्मा, अनुभवी अभिनेता विनय पाठक और निशांत दहिया भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। अपने लुक और किरदार के बारे में बात करते हुए मौनी ने कहा, हर एक लड़की को सजने-संवरने और एकदम अलग दिखने में मजा आता है।

सुल्तान ऑफ दिल्ली में मुझे नयनतारा के रूप में हर एपिसोड में अपनी स्टाइल और कलर स्कीम का बदलने का मौका मिला। किरदार के लिए परफेक्ट लुक ढूँढना बेहद मुश्किल काम है और मैंने 200 से ज्यादा आउटफिट्स पहनी हैं और अपने बालों के साथ भी कई एक्सपेरिमेंट किए हैं। उन्होंने आगे कहा, 10 से ज्यादा टेस्ट-लुक आजमाने के बाद, आखिरकार हमें वह मिल गया जो हम चाहते थे। नयनतारा अपने तरीके से कहानी में काफी ग्लैमर और चमक लाती हैं। यह पहली बार है जब मैं 60 के दशक का लुक अपना रही हूँ और दर्शकों को मेरा यह पक्ष दिखाने के लिए बहुत उत्साहित हूँ।



## उर्फी जावेद की नेटवर्थ कई रईसों से अधिक

आपको जानकार हैरानी होगी कि उर्फी जावेद की नेटवर्थ कई रईसों से अधिक है। उर्फी की नेटवर्थ 170 करोड़ रुपये है। उर्फी सोशल मीडिया पोस्ट से खूब कमाई करती हैं। इसके अलावा वह कई रियल्टी शो में भी नजर आती रहती हैं। आपको बता दें कि उर्फी का जन्म 1997 में लखनऊ में हुआ था। उनकी स्कूली शिक्षा सिटी मॉन्टेसरी से हुई है। उर्फी जावेद की आय का मुख्य स्रोत विज्ञापन ही है। इंस्टाग्राम पर उनके 40 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनकी रील्स और तस्वीरें कई बार खबरों में चर्चा का विषय बन जाती हैं। इस पॉपुलैरिटी के कारण उन्हें प्रोडक्ट स्पॉन्सर करने के लिए मोटी रकम मिलती है। उर्फी को ख्याति तो रियल्टी शो बिग बॉस से मिली लेकिन इस ख्याति को उचाइयों पर उनके अतरंगी फैशन स्टाइल ने पहुंचाया।

हालांकि, बिग बॉस में आने से पहले उर्फी कई धारावाहिकों में नजर आ चुकी हैं। उन्होंने दुर्गा, सात फेरे की हेराफेरी, बेपनाह, जीजी मां और ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे धारावाहिक में काम किया है। उर्फी की मासिक आय 1.8 करोड़ से 2.2 करोड़ रुपये बताई जाती है। वह किसी सीरियल के एक एपिसोड में आने के लिए 25,000 से 30,000 रुपये चार्ज करती हैं। फिलहाल वह मुंबई के एक आलीशान अपार्टमेंट में रहती हैं। उनके पास जीप की कंपनी है जिसकी कीमत 25 लाख रुपये के आसपास है।

## मसाज करवाने के चक्कर में घायल हुई भारती

अपने ब्लॉग में मशहूर कॉमेडियन भारती ने खुलासा किया कि वह मसाज करवाने के चक्कर में घायल हो गई हैं। उनकी कमर पर चोट आ गई है और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोला है। दरअसल, भारती सिंह ने अपने ब्लॉग में बताया कि बीते दिन वह अपने बेड पर से गिर गई थीं। इस वजह से उनकी पीठ में चोट लग गई। भारती ने कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है, मैं कल बिस्तर से गिर गई। उन्होंने कहा, जिस वजह से वह बेड से गिरीं, तब वह हेड मसाज ले रही थीं और उनका फोन हाथ में ही था। वह बेड के किनारे पर बैठी हुई थीं और फोन की वजह से उनका ध्यान भटक गया। इस वजह से वह सीधा बेड पर से धड़ाम गिर गईं। भारती ने बताया कि यह उन्के लिए इस वक्त काफी मजेदार था। गिरने के बाद वह खुद ही काफी ज्यादा हंसने लगीं। वीडियो में भारती ने खुलासा किया कि उन्हें पीठ में ज्यादा चोट लगी थी, जिससे वजह से हर्ष लिंबाचिया आते ही सबसे पहले उन्हें अस्पताल लेकर गए। यहां पर उनका एक्सरे किया गया, जिसमें उनकी हालत ठीक बताई गई है। डॉक्टर ने भारती को पूरी तरह बेड रेस्ट के लिए कहा है। हालांकि, कॉमेडियन भारती ने अपने फैंस को कोई चिंता नहीं करने को बोला है।




## शिल्पा शेठ्टी ने धूमधाम से किया गणपति विसर्जन

देशभर में गणेश चतुर्थी का त्योहार जोर-शोर से मनाया जाता है। कई बॉलीवुड सेलेब्स भी अपने घर पर गणपति बप्पा का स्वागत करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेठ्टी गणपति बप्पा की मूर्ति अपने घर लेकर आईं। अब एक्ट्रेस ने बड़ी धूमधाम से गणपति बप्पा का विसर्जन किया।

इस साल शिल्पा शेठ्टी का गणेश चतुर्थी विसर्जन उत्सव पिछले उत्सवों की भयत्ता को पार कर गया। बॉलीवुड अभिनेत्री और फिटनेस एनथुसिस्ट अपने उत्साहपूर्ण त्योहार समारोहों के लिए प्रसिद्ध हैं और इस वर्ष कोई अपवाद नहीं था। इस वर्ष के उत्सव में जो बात अलग थी, वह नासिक से ऑल-गर्ल डोल बैड का शामिल होना था, जिसमें 21 प्रतिभाशाली महिलाएं शामिल थीं।

शिल्पा शेठ्टी अपने घर के बाहर गणपति विसर्जन के दौरान डोल की थाप पर जमकर झूमती नजर आईं। इस दौरान शिल्पा लाइट पिंक कलर की पारंपरिक मराठी साड़ी और येलो ब्लाउज पहने नजर आईं। शिल्पा के साथ उनका परिवार भी जमकर डांस करता आया।

शिल्पा का गणेश चतुर्थी विसर्जन एकता, खुशी और सांस्कृतिक समृद्धि के प्रतीक में बदल गया है, जो त्योहार के वास्तविक सार को समाहित करता है। उनका उत्सव महिला-शक्ति की भावना का प्रतीक, महिलाओं के सशक्तिकरण और समर्थन के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। ये उत्सव सकारात्मकता और खुशी फैलाता है, प्रतिभागियों के बीच अद्वितीय और यादगार संबंध बनाता है और लोगों को सांस्कृतिक समृद्धि के उत्सव में एकजुट करता है।



## 43 साल की हुई करीना कपूर

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर 43 वर्ष की हो गई हैं। 21 सितंबर 1980 को मुंबई में जन्मी करीना कपूर को अभिनय की कला विरासत में मिली। उनके पिता रणधीर कपूर अभिनेता जबकि मां बबीता और बहन करिश्मा कपूर जानी मानी फिल्म अभिनेत्री थी। घर में फिल्मी माहौल रहने के कारण करीना अक्सर अपनी बहन के साथ शूटिंग देखने जाया करती थीं। इस वजह से उनका भी रुझान फिल्मों की ओर हो गया और वह भी अभिनेत्री बनने के खाब देखने लगीं।

करीना कपूर ने बतौर अभिनेत्री अपने सिने करियर की शुरुआत साल 2000 में रिलीज फिल्म 'रिपयूजी' से की। इस फिल्म में उनके नायक की भूमिका अभिषेक बच्चन ने निभायी थी जो उनकी भी पहली फिल्म थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। साल 2001 में रिलीज फिल्म 'मुझे कुछ कहना है' करीना के करियर की पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई।

साल 2001 में करीना को सुभाष घई की फिल्म 'यादें' में काम करने का अवसर मिला लेकिन कमजोर पटकथा के कारण यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। हालांकि उस वर्ष उनकी कभी खुशी कभी गम और अजनबी जैसी सुपरहिट फिल्मों भी रिलीज हुईं लेकिन कामयाबी का श्रेय इन फिल्मों के अभिनेताओं को अधिक दिया गया। 2002 में करीना कपूर के करियर के लिए महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ। इस वर्ष उनकी जीना सिर्फ मेरे लिये और मुझसे दोस्ती करोगे जैसी हिट फिल्में रिलीज हुईं।

साल 2003 में करीना को सूरज बड़जात्या की फिल्म 'मैं प्रेम की दीवानी हूँ' में काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म में रितिक रोशन और अभिषेक बच्चन जैसे सितारे थे बावजूद यह फिल्म कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। 2004 में करीना के अभिनय के नये आयाम देखने को मिले। इस वर्ष करीना की युवा, चमेली, हलवल और एतराज जैसी सुपरहिट फिल्में रिलीज हुईं। सुधीर मिश्रा के निर्देशन में बनी फिल्म चमेली में करीना ने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिये उन्हें फिल्म फेयर का पुरस्कार भी दिया गया।

साल 2006 में करीना कपूर की सुपरहिट फिल्म ओंकारा रिलीज हुई। विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी फिल्म ओंकारा में करीना को उनके दमदार अभिनय के लिए फिल्मफेयर की ओर से क्रिटिक्स अवॉर्ड दिया गया। इसी वर्ष रिलीज फिल्म डॉन में करीना कपूर ने कैमियो किया। इस फिल्म में करीना ने हेलन के सुपरहिट गाने ये मेरा दिल यार का दीवाना पर डांस कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।